



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 38] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 22—सितम्बर 28, 2007 (भाद्रपद 31, 1929)
No. 38] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 22—SEPTEMBER 28, 2007 (BHADRA 31, 1929)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

(वित्त प्रभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 22 सितम्बर 2007

सं. 470, दिनांक 29 अगस्त 2005.--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के सहायक श्री राज सिंह को, दिनांक 10 जुलाई, 2007 से 31.12.2007 तक या नियमित अधिकारी के उपलब्ध होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में तदर्थ आधार पर अनुभाग अधिकारी के रूप में नियुक्त करते हैं।

उपर्युक्त नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों पर की जाती है :--

- (1) तदर्थ प्रोन्नति उनको ग्रेड में निश्चित रूप से जारी रखने या नियमित नियुक्ति किए जाने के लिए चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय सेवा संवर्ग के अनुभाग अधिकारियों के ग्रेड में वरिष्ठता के किसी प्रकार के दावा करने का अधिकार नहीं होगा।
- (2) तदर्थ अनुभाग अधिकारियों को केन्द्रीय सचिवालय सेवा नियमावली में निर्धारित भर्ती के सामान्य माध्यमों के द्वारा

स्थायी अनुभाग अधिकारी के उपलब्ध हो जाने पर सहायक ग्रेड में पदावनत किया जा सकता है।

आर. एस. परोच
उप वित्तीय सलाहकार (स्था.)

सं. 471, दिनांक 3 सितम्बर 2005.--अनुदेश 14/79 द्वारा यथासंशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं:--

नियमित सेवा

अल्पकालीन आयोग

कप्तान के पद पर

कप्तान सोरव सिन्हा, एम एस-14487के, आयोग की तिथि 19 दिसम्बर 2002 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 19 जून 2002 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

दिनांक 30 अप्रैल 2005 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं. जहां तक इस अफसर से संबंधित है, रद्द किया जात है।

कप्तान यतिन कुमार वर्मा, एम एस-15305एक्स, आयोग की तिथि 21 अप्रैल 2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 21 अप्रैल 2003 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति/स्नातकोत्तर योग्यता डाक्टर ऑफ मेडीसन के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

कप्तान मनीष कुमार, एम एस-15245एन, आयोग की तिथि 21 अप्रैल 2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 21 अप्रैल 2003 से दी जाएगी। (इसमें स्नातकोत्तर योग्यता डाक्टर ऑफ मेडीसन के लिए 36 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

कप्तान जयन्त कुमार विश्वास, एम एस-15207एक्स, आयोग की तिथि 20 जनवरी 2006 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 20 जुलाई 2005 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान गुप्ता नेहा अशोक, एम एस-14774एन, आयोग की तिथि 17 फरवरी 2004 को वेतन और पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 17 अगस्त 2003 से दी जाएगी। (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए 06 महीने पहले से दी गई ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

यथा संशोधित थलसेना अनुदेश 75/78 के अधीन राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं।

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)

कप्तान के पद पर (परख पर)

कप्तान अतुल रांगी, एम एस-15299पी, ए एम सी--18 अप्रैल 2006
कप्तान रीतेश कुमार सिंह, एम एस-15311एल, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान रवि कान्त, एम एस-15312एन, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान जयवीर सिंह खत्री, एम एस-15315एफ, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान नवीन कुमार, एम एस-15316के, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान हरविन्दर सांगवान, एम एस-15318पी, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान दिलेश पी के, एम एस-15319एक्स, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान रिजा उल करीम, एम एस-15320एम, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान द्रोणा शर्मा, एम एस-15321पी, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान सुरभि शर्मा, एम एस-15323ए, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान अभिषेक भारद्वाज, एम एस-15324एच, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान बिजु आर, एम एस-15347के, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान अरूण यादव, एम एस-15350के, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान इन्द्रजीत साड, एम एस-15353एक्स, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान कर्ण सूद, एम एस-15355एच, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान मगेश कुमार, एम एस-15360एन, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान विवेकानन्द सरोज, एम एस-15361 डब्ल्यू, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान संदीप राणा, एम एस-15387एल, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान भारत, एम एस-15391एन, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान चेतन अरोड़ा, एम एस-15392डब्ल्यू, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान मार्क्स चन्द लेनिन, एम एस-15394एफ, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान प्रभात पीयूष, एम एस-15333के, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान अमित कुमार कामेवाड, एम एस-15334एम, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान श्वेत दत्ता, एम एस-15339एल, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान अभिजीत दास, एम एस-15348एम, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान चव्हाण नयनेश काशिनाथ, एम एस-15349पी, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान राज नारायण मण्डल, एम एस-15359वाई, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान मकवाण सौरभभाई कान्तिभाई, एम एस-15363एफ, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान अचिनाश मिश्रा, एम एस-15366पी, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान मोहम्मद आरिफ बेग, एम एस-15370एक्स, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान ठोके संतोष व्यंकटेश, एम एस-15371ए, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

कप्तान लोकेश कुमार, एम एस-15372एच, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

- कप्तान नितिन शर्मा, एम एस-15374एन, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान वरूण कुमार चक्रवर्ती, एम एस-15375डब्ल्यू, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान महेन्द्र सिंह, एम एस-15377एफ, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान अनूप प्रकाश बी, एम एस-15379एम, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान पवार अमित अजय, एम एस-15380एफ, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान रिजवान गौरी, एम एस-15384एक्स, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान संजीव एस शर्मा, एम एस-15386एच, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान सोहन पाल, एम एस-15388एन, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान उषा प्रेमी, एम एस-15389डब्ल्यू, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान राकेश कुमार, एम एस-15314वाई, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान माहवुर रहमान, एम एस-15330डब्ल्यू, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान चेतन पंगोत्रा, एम एस-15335पी, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान जोयिष उपेन्द्र कुमार, एम एस-15336एक्स, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान कविथा वाई, एम एस-15337ए, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान कोतोर कोयू, एम एस-15340ए, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान प्रवीण कुमार, एम एस-15341एच, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान सी लालसंगयूला, एम एस-15343एन, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान सौरीश राय, एम एस-15344डब्ल्यू, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान ढगे सतीश कुमार रावसाहेब, एम एस-15345वाई, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान हरीकेश मगदूम, एम एस-15352पी, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान सम्राट घोष, एम एस-15356एल, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान सुमिता सिन्हा, एम एस-15357एन, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान जाईल अपर्णा भालचंद्र, एम एस-15358डब्ल्यू, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान विकास कुमार, एम एस-15362वाई, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान अरूनाभ साहा, एम एस-15365एम, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान अभिमन्यु एस, एम एस-15373एल, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान कारडे प्रवीण नारायण, एम एस-15376वाई, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान जोन मगेश कुमार जे, एम एस-15382एम, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान सुमन्त राय, एम एस-15310एच, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान गुरसाले अमेय रमाकान्त, एम एस-15313डब्ल्यू, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान दिनेश कुमार कालरा, एम एस-15325एल, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान दीपश्री, एम एस-15326एन, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान अरूनाभा मुखर्जी, एम एस-15327डब्ल्यू, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान पुनीत सिंह, एम एस-15328वाई, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान नेहा गर्ग, एम एस-15329एफ, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान खलील एम, एम एस-15331वाई, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान मुकेश कुमार, एम एस-15332एफ, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान नीरज टेकर, एम एस-15342एल, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान भावेश प्यारा, एम एस-15354ए, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान ध्रुव विकास संतरा, एम एस-15367एक्स, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान एच वानलाल हुणई, एम एस-15368ए, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
- कप्तान किशोर कुमार दलपति, एम एस-15397पी, ए एम सी--06 अक्टूबर 2006

कप्तान नीलम, एम एस-15417एक्स, ए एम सी--22 सितम्बर 2006
कप्तान पंकज भण्डारी, एम एस-15420एक्स, ए एम सी--06 अक्टूबर 2006

कप्तान अचिन्त के आर मल्लिक, एम एस-15421ए, ए एम सी--06 अक्टूबर 2006

कप्तान पजई रविन्द्र केशवराव, एम एस-15423एल, ए एम सी--06 अक्टूबर 2006

कप्तान सी मलस्वामिकिमा, एम एस-15424एन, ए एम सी--13 अक्टूबर 2006

कप्तान साम्युल लालरिनत्तुंगा, एम एस-15425डब्ल्यू, ए एम सी--13 अक्टूबर 2006

कप्तान धयाडे मनोज काशिनाथाप्पा, एम एस-15426वाई, ए एम सी--13 अक्टूबर 2006

फ्ला. लेफ्टि. के पद पर (परख पर)

फ्ला. लेफ्टि. अभिषेक बनर्जी, एम एस-15419एच, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

फ्ला. लेफ्टि. बिडकर नरेश रघुनाथराव, एम एस-15470एच, ए एम सी--22 जनवरी 2007

फ्ला. लेफ्टि. बिप्लब भौमिक, एम एस-15473डब्ल्यू, ए एम सी--22 जनवरी 2007

फ्ला. लेफ्टि. नीरू शर्मा, एम एस-15474वाई, ए एम सी--22 जनवरी 2007

फ्ला. लेफ्टि. संतोष कुमार उमर, एम एस-15476के, ए एम सी--22 जनवरी 2007

फ्ला. लेफ्टि. अश्विनी कुमार, एम एस-15483ए, ए एम सी--22 जनवरी 2007

फ्ला. लेफ्टि. के. कमल हसन, एम एस-15484एच, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

फ्ला. लेफ्टि. भेंडिगिरी शिरीष रमेश, एम एस-15485एल, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

फ्ला. लेफ्टि. चेतन सी पाटील, एम एस-15486एन, ए एम सी--22 सितम्बर 2006

जी रवीन्द्रनाथ
त्रिगेडियर
उप डीजीएफएमएस (पर्स)

नेवी ब्रांच

रक्षा मंत्रालय-एकीकृत मुख्यालय (नौसेना)

सं. 472, दिनांक 3 सितम्बर 2005.--राष्ट्रपति सहर्ष श्री वी. के. छबरा, प्रधान निजी सचिव, को दिनांक 13 जुलाई 2007 से सशस्त्र सेना मुख्यालय

की आशुलिपिक सेवा में वरिष्ठ प्रधान निजी सचिव (वर्ग 'क' राजपत्रित वेतनमान रु. 12,000--16,500/-) के पद पर नियुक्त करते हैं।

शंकर सिंह
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सं. 473, दिनांक 28 अगस्त 2005.--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय के केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के निम्नलिखित ग्रेड 'ग' आशुलिपिकों, जो इस समय रक्षा मंत्रालय में 6,500-200-10,500/- रुपये के वेतनमान में तदर्थ आधार पर निजी सचिव के रूप में स्थानापन्न हैं, की नियुक्ति को उनके नाम के सामने दर्शाई गई अवधि तक या नियमित निजी सचिवों के उपलब्ध होने तक या अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, और आगे बढ़ाते हैं :-

अधिकारी का नाम, से, तक

श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्री नरेन्द्र चड्ढा, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्रीमती हरविन्दर चावला, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्रीमती सुखपाल बालिया, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्रीमती सुनीता कोहली, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्री एस. सी. धींगड़ा, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्री आर. शंकरनारायणन, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्री वी. वी. एन. कुट्टी, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्रीमती निर्मल आनंद, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्रीमती वीना मेहता, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्रीमती संतोष कुमारी शर्मा, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्रीमती जनक चोपड़ा, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्रीमती वीना सचदेवा, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्री एच. आर. धीमन, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्रीमती चंद्रकान्ता कालरा, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्रीमती विजय नारंग, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्रीमती मरियम्मा जॉर्ज, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्री बालकृष्ण सिंघ, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्रीमती ए. गंगा, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्री अशोक कुमार, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्रीमती शक्ति बाला बक्शी, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्री नंद किशोर, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्री धर्मवीर, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्री एस. नागराजन, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्री आर. के. सेठी, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्री मौ. गोहर हुसैन, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्री राजेन्द्र प्रसार, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्री हरबंस लाल, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

श्री अनिल कुमार, 1 जुलाई 2007—31 दिसम्बर 2007

2. तदर्थ नियुक्ति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा (निजी सचिव) के आशुलिपिक ग्रेड "क" और "ख" (विलयित) में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

3. तदर्थ नियुक्ति को बिना कोई कारण बताए किसी भी समय समाप्त किया जा सकता है।

एस. के. देब
अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं. 474, दिनांक 29 अगस्त 2007.—राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना
कवचित कोर

स्थायी रिसालदार के रैंक में

नायब रिसालदार हरबन्स सिंह (जेसी-240074एफ), 01 सितम्बर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार देवेन्द्र सिंह (जेसी-240123वाई), 01 अक्टूबर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जतिन्दर सिंह (जेसी-239282के), 17 सितम्बर 2005*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 13 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गीरीश चन्द्र (जेसी-239638एम), 11 मार्च 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पी ओवुला रेड्डी (जेसी-238992एम), 04 जनवरी 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जतिन्दर सिंह (जेसी-239205पी), 29 मार्च 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राजेश कुमार (जेसी-239812वाई), 01 दिसम्बर 2005

नायब रिसालदार राधे श्याम सिंह (जेसी-239639पी), 18 मार्च 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सतवीर (जेसी-239380के), 01 अप्रैल 2006

नायब रिसालदार करमवीर (जेसी-240464के), 01 अप्रैल 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दीवान सिंह फोगाट (जेसी-239888एन), 01 फरवरी 2006

नायब रिसालदार राजेन्द्र बाबू सक्सेना (जेसी-240047एक्स), 01 अप्रैल 2006

नायब रिसालदार शशीकान्त मिश्रा (जेसी-240030के), 03 अप्रैल 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सिद्दना गौडा काशीनाकुन्ती (जेसी-240575एफ), 04 मई 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रघुनाथ सिंह (जेसी-239699के), 08 मई 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राजा सेखरन नायर जी (जेसी-240596एक्स), 31 मई 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 मार्च 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार यामीन खान (जेसी-238248एक्स), 24 अप्रैल 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पयदी नन्देसू (जेसी-239649वाई), 21 अप्रैल 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार नन्द राम (जेसी-239320पी), 27 अप्रैल 2006*

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार फजलूर रहेमान शेख (जेसी-239405एल), 27 अप्रैल 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार हरेन्द्र नाथ चोरदले (जेसी-239973डब्ल्यू), 15 मई 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राजेन्द्र प्रसाद (जेसी-239810एच), 01 मई 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार देवराज मलकानीया (जेसी-239536डब्ल्यू), 18 मई 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार प्रेम नाथ सिंह (जेसी-239858डब्ल्यू), 01 मई 2006

नायब रिसालदार गुरुवीन्दर सिंह (जेसी-239803एम), 01 मई 2006

नायब रिसालदार कबीन्द्र प्रसाद सिंह (जेसी-240131एक्स), 03 मई 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार टीकेश्वर राम (जेसी-240443एन), 05 जून 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार पाटोले कृष्ण नाथ दिनकर (जेसी-239600एच), 31 मई 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बरवोले राम चन्द्र औदुम्बर (जेसी-240335के), 12 मई 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार महावीर सिंह (जेसी-240623डब्ल्यू), 22 मई 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 मार्च 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार गुरुमीत सिंह (जेसी-240118एम), 02 अप्रैल 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार श्याम लाल (जेसी-240521ए), 28 जून 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार वेग सिंह तनवर (जेसी-240528के), 16 जून 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 22 फरवरी 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार दामोर भूरा भाई समजी भाई (जेसी-240567एच), 05 जुलाई 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार निखिल दत्ता (जेसी-239860एन), 07 जून 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 अप्रैल 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बलदेव सिंह (जेसी-239931के), 01 जून 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मई 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रामजीवन शान्नीगृही (जेसी-239482ए), 08 जुलाई 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राम भजन भारद्वाज (जेसी-239547एच), 08 अगस्त 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 जून 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बलवीर सिंह (जेसी-240388एच), 01 अगस्त 2006

नायब रिसालदार सुलतान सिंह (जेसी-240094पी), 31 जुलाई 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार किशोर सिंह (जेसी-239863एफ), 29 जुलाई 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कम्पया मथापती (जेसी-238478एल), 31 जुलाई 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राजपाल सिंह (जेसी-240604एल), 26 जुलाई 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार अशीष कुमार बिसवास (जेसी-240119डब्ल्यू), 15 अगस्त 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 जून 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रघुनाथ सिंह (जेसी-240458डब्ल्यू), 01 अगस्त 2006

नायब रिसालदार चरन सिंह (जेसी-240436एक्स), 01 अगस्त 2006

नायब रिसालदार सुखदाव सिंह (जेसी-240769के), 08 अगस्त 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार फकीर चन्द (जेसी-240864डब्ल्यू), 06 सितम्बर 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2005 से दी जाती है)

नायब रिसालदार विजय कुमार सिंह (जेसी-240008 वाई), 04 अगस्त 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रनवीर सिंह (जेसी-239783एक्स), 09 अगस्त 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 जून 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राम देव (जेसी-240313एल), 21 सितम्बर 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुरेन्द्र सिंह दलाल (जेसी-239846एफ), 01 अगस्त 2006

नायब रिसालदार जोगीन्द्र पॉल शर्मा (जेसी-240455एच), 09 अगस्त 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार एस अरोक्किया सामी (जेसी-240433के), 12 अगस्त 2006 *

*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जाती है)

इन्फैंट्री

मैकनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेन्ट

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार मदन लाल (14907251वाई अब जेसी-420712एक्स), 15 मई 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है)

हवलदार बीर सिंह (14907341ए अब जेसी-420713ए), 11 अप्रैल 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 फरवरी 2007 से दी जाती है)

हवलदार रवि सिंह (14907350एफ अब जेसी-420714एच), 11 अप्रैल 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)

हवलदार अशोक कुमार (14907359डब्ल्यू अब जेसी-420715एल), 11 अप्रैल 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)

हवलदार मूल सिंह (14907794एल अब जेसी-420716एन), 16 मई 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)

हवलदार शिव कुमार (14910390एन अब जेसी-420717डब्ल्यू), 05 मई 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

हवलदार कन्हैया (14910775एल अब जेसी-420718वाई), 25 मई 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

हवलदार लक्ष्मण सिंह (14907851एफ अब जेसी-420719एफ), 28 अप्रैल 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

हवलदार बसवा नन्द (14910349एक्स अब जेसी-420720डब्ल्यू), 11 मई 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

हवलदार मोहन सिंह रावत (14908227पी अब जेसी-420721वाई), 18 मई 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

हवलदार मनवीर सिंह (14908185एन अब जेसी-420722एफ), 15 मई 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

हवलदार आनन्दा चन्द्रा साहा (14907445एफ अब जेसी-420723के), 15 मई 2007 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

हवलदार अवधेश प्रताप सिंह (14908343एक्स अब जेसी-420724एम),
15 मई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

हवलदार पुरन राम (14910277वाई अब जेसी-420725पी), 15 मई
2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

हवलदार रोशन लाल (14906664डब्ल्यू अब जेसी-420726एक्स),
10 मई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)

हवलदार इंदू नारायण मिश्रा (14907954ए अब जेसी-420727ए),
01 मई 2007

हवलदार राजा गोपालन पी (14909878एक्स अब जेसी-420728एच),
03 मई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)

हवलदार सत्या प्रकाश (14909477एच अब जेसी-420729एल),
01 मई 2007

हवलदार सुभाष चन्द्र (14909928एक्स अब जेसी-420730ए),
24 मई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 मई 2007 से दी जाती है)

गार्ड्स ब्रिगेड

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार बिडप्पा बी यू (जेसी-402328एन), 07 जून 2007*

*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मई 2007 से दी जायेगी)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार बिपुल कुमार गोगोई (जेसी-403341के), 29 मार्च
2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
14 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार (जेसी-403413एच), 15 मई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार यटपु वेंकट रामी रेड्डी (जेसी-403455पी), 1 मार्च
2007

नायब सूबेदार कृष्ण बिहारी (जेसी-403532वाई), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार परिमल सिंह गुर्जर (जेसी-403427एच), 08 मई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार शिवराज पाटील (जेसी-403438पी), 26 मई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार परमात्मा नंद तिवारी (जेसी-403501वाई), 01 अप्रैल
2007

नायब सूबेदार ए वेंकट रमन राजू (जेसी-403506एक्स), 01 अप्रैल
2007

नायब सूबेदार राजेश (जेसी-403536पी), 28 मई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार प्रेम पाल सिंह (जेसी-403595एफ), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार प्रताप सिंह (जेसी-403596के), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार ज्ञानेश (जेसी-403597एम), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार राजेश कुमार (जेसी-403564एफ), 11 मई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
08 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-403273एफ), 29 अप्रैल 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
15 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार भास्करन सी टी (जेसी-403225एफ), 15 मई 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
05 मई 2007 से दी जायेगी)

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) शेष देव मिश्र (जेसी-403666एक्स), 01 मई
2007

सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में

सूबेदार (क्लर्क) प्रकाश चंद्र (जेसी-402467एक्स), 03 जून 2007*

*(सूबेदार मेजर (क्लर्क) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले
बिना ज्येष्ठता 01 जून 2007 से दी जायेगी)

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार राम अवधेश सिंह (जेसी-403400एल), 28 मार्च 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता
01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार चाँद मोहम्मद (जेसी-403471एम), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार सुभास चंद्र (जेसी-403535एम), 19 जून 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 मार्च 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार रथीशन के (जेसी-403473एक्स), 16 जून 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार महाबीर सिंह (जेसी-403458एच), 29 जून 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार सुरेंद्र पाल सिंह (जेसी-403599एक्स), 01 मई 2007

नायब सूबेदार कृष्ण सिंह (जेसी-403346एच), 20 जून 2007*

*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 जून 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार यश पाल सिंह (जेसी-403388पी), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार हीरा सिंह (जेसी-403397डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार हरिहर सिंह कुशवाह (जेसी-403649एक्स), 01 जुलाई 2007

सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

नायब सूबेदार (क्लर्क) सैयद उस्मान सईद (जेसी-403468एम), 01 जून 2007

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार नरेंद्र कुमार पाठक (सं. 13688864एफ अब जेसी-404082वाई), 29 मई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

हवलदार जय रामा राम गोना (सं. 13689050पी अब जेसी-404089एच), 14 अप्रैल 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

हवलदार चंद्र प्रकाश (सं. 13689107वाई अब जेसी-404090एच), 01 अप्रैल 2007

हवलदार राजेन्द्र प्रसाद (सं. 13688898पी अब जेसी-404106एक्स), 29 अप्रैल 2007

हवलदार राजेश कुमार सिंह (सं. 13689060वाई अब जेसी-404107ए), 09 मई 2007

हवलदार रितु रंजन सिंह (सं. 13689144एम अब जेसी-404108एच), 09 मई 2007

हवलदार रंजीत सिंघा (सं. 13686442एक्स अब जेसी-404111एच), 01 जुलाई 2007

हवलदार अरविंद कुमार (सं. 13686070एक्स अब जेसी-404112एल), 01 जुलाई 2007

हवलदार जनक राज शर्मा (सं. 13687508पी अब जेसी-404113एन), 01 जुलाई 2007

हवलदार शेरपा तेन सिंह (सं. 13687946एक्स अब जेसी-404114डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007

नायब सूबेदार (क्लर्क) के रैंक में

हवलदार (क्लर्क) शमशाद आलम (सं. 13692621एन अब जेसी-404109एल), 01 जून 2007

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार निरंजन कर (सं. 13685083एच अब जेसी-404099एम), 06 अप्रैल 2007

हवलदार प्रसन्न के एस (सं. 13688222एम अब जेसी-404100डब्ल्यू), 12 अप्रैल 2007

हवलदार लायक राम चौरसिया (सं. 13685147एच अब जेसी-404101वाई), 15 अप्रैल 2007

हवलदार महेश चंद्र (सं. 13685499ए अब जेसी-404102एफ), 15 अप्रैल 2007

हवलदार जगदीश सिंह (सं. 13685539डब्ल्यू अब जेसी-404103के), 15 अप्रैल 2007

हवलदार अमरीक सिंह (सं. 3383676ए अब जेसी-404104एम), 20 अप्रैल 2007

हवलदार के वेंकट पपी रेड्डी (सं. 13689385एम अब जेसी-404105पी), 18 जून 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

हवलदार उदय राज पाल (सं. 13691366ए अब जेसी-404059एल), 03 मार्च 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार जगबीर सिंह (सं. 13688989वाई अब जेसी-404060ए), 09 अप्रैल 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2007 से दी जायेगी)

हवलदार भोंडावे दरकनाथ किसन (सं. 13686653ए अब जेसी-404061एच), 01 फरवरी 2007

हवलदार एस गोपालकृष्णन (सं. 13689705डब्ल्यू अब जेसी-404069पी), 01 मार्च 2007

हवलदार नरसिंहा राव कोटपल्ली (सं. 13688976एफ अब जेसी-404074ए), 11 अप्रैल 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 मार्च 2007 से दी जायेगी)

हवलदार अमन चंद्र अहीरवार (सं. 13689271एफ अब जेसी-404076एल), 25 मार्च 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2006 से दी जायेगी)

हवलदार कंहेया बक्स सिंह (सं. 13688324एच अब जेसी-404077एन), 25 मार्च 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार शत्रुगन सिंह, सेना मेडल (सं. 13688603एच अब जेसी-404078डब्ल्यू), 16 मई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2006 से दी जायेगी)

हवलदार राम चंद्र (सं. 13688696एन अब जेसी-404079वाई), 29 जनवरी 2007

हवलदार आरोकियादास जी (सं. 13689032एम अब जेसी-404081डब्ल्यू), 22 मई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जायेगी)

हवलदार सुरेंद्र प्रताप दुबे (सं. 13688867पी अब जेसी-404083एफ), 04 मार्च 2007

हवलदार सही राम (सं. 13687772एच अब जेसी-404084के), 27 मार्च 2007

हवलदार जसवंत सिंह (सं. 13689639वाई अब जेसी-404085एम), 28 मार्च 2007

हवलदार सतीश कुमार सिंह (सं. 13689165एच अब जेसी-404086पी), 26 मई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

हवलदार मुन्ना लाल (सं. 13688886ए अब जेसी-404088ए), 12 अप्रैल 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

हवलदार माता शरण पाठक (सं. 13687917एच अब जेसी-404091ए), 01 अप्रैल 2007

हवलदार लाल बहादुर (सं. 13691367एच अब जेसी-404092एच), 01 अप्रैल 2007

हवलदार अशोक कुमार मिश्र (सं. 13691539एम अब जेसी-404093एल), 01 अप्रैल 2007

हवलदार हरीश कुमार (सं. 13690277पी अब जेसी-404094एन), 11 मई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

हवलदार श्याम सुंदर (सं. 13690472एम अब जेसी-404095डब्ल्यू), 11 मई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 08 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

हवलदार अशोक कुमार (सं. 13687588एक्स अब जेसी-404096वाई), 14 मई 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अप्रैल 2007 से दी जायेगी)

हवलदार महेंद्र सिंह (सं. 13687948एच अब जेसी-404097एफ), 02 मई 2007

हवलदार कंवर सिंह (सं. 13688197वाई अब जेसी-404098के), 10 जून 2007*

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मई 2007 से दी जायेगी)

नायब सूबेदार (एस के टी) के रैंक में

हवलदार (एस के टी) कमल किशोर (सं. 13687755एच अब जेसी-404080एन), 01 मार्च 2007

जोस थॉमस
अवर सचिव

सं. 475, दिनांक 28 अगस्त 2007.--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

(नियमित सेना)

इन्फैन्ट्री

4 जी आर

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार वीर बहादुर थापा (जेसी-612507एल), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार वीर धन गुरूंग (जेसी-612506एच), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार राम बहादुर थापा (जेसी-612545एफ), 01 जून 2006
(ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अगस्त 2005)

नायब सूबेदार नरेन्द्र कुमार (जेसी-612555एल), 01 जून 2006

(ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अक्टूबर 2005)

नायब सूबेदार कुल मान पुन (जेसी-612574डब्ल्यू), 01 जून 2006

(ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर 2005)

नायब सूबेदार बीर बहादुर राना (जेसी-612576एफ), 01 जून 2006

(ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 दिसम्बर 2005)

नायब सूबेदार हरका बहादुर पुन (जेसी-612577के), 01 जून 2006

(ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 जनवरी 2006)

नायब सूबेदार टेक राज गुरूंग (जेसी-612568एच), 01 जून 2006
(ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 01 अप्रैल 2006)

नायब सूबेदार धीर बहादुर गुरूंग (जेसी-612569एल), 01 जून 2006
(ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 11 अप्रैल 2006)

नायब सूबेदार पिताम्बर आले (जेसी-612583एक्स), 01 जून 2006
(ज्येष्ठता, वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना 28 अप्रैल 2006)

नायब सूबेदार तोप बहादुर थापा (जेसी-612518एक्स), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार भिम बहादुर थापा (जेसी-612535एक्स), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार तुला राम गुरूंग (जेसी-612541एल), 04 अगस्त 2006

नायब सूबेदार ईमान सिंह राना (जेसी-612521एक्स), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार उत्तर सिंह गुरूंग (जेसी-612543डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार गणेश बहादुर बुरा (जेसी-612550एम), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार दिल बहादुर पुन, सेना मेडल (जेसी-612552एक्स), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार कुल बहादुर गुरूंग (जेसी-612553ए), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार पार्थ बहादुर पुन (जेसी-612554एच), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार जित बहादुर गुरूंग (जेसी-612547एम), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार तर्का बहादुर राना (जेसी-612548पी), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार तेज कुमार गुरूंग (जेसी-612598एल), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार फन बहादुर गुरूंग (जेसी-612600एम), 13 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार देव बहादुर गुरूंग (जेसी-612539एन), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार गंगा बहादुर थापा (जेसी-612559एफ), 01 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार भद्रा बहादुर पुन (जेसी-612578एम), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार दिल बहादुर राना (जेसी-612538एल), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार हर कुमार सिरिश (जेसी-612612एफ), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार मिनामा तेन्जी शेरपा (जेसी-612540एच), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार संजय गुरूंग (जेसी-612527वाई), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार समर विजय (जेसी-612588डब्ल्यू), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार आनंद कुमार (जेसी-612591डब्ल्यू), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार होम बहादुर गुरूंग (जेसी-612592वाई), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार राम बहादुर थापा (जेसी-612564एम), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार लोक बहादुर थापा (जेसी-612565पी), 01 मई 2007

नायब सूबेदार बेन बहादुर गुरूंग (जेसी-612571एच), 01 मई 2007

नायब सूबेदार गगन बहादुर पुन (जेसी-612581एम), 01 मई 2007

नायब सूबेदार हुम बहादुर थापा (जेसी-612582पी), 01 मई 2007

नायब सूबेदार श्री प्रसाद गुरूंग (जेसी-612593एफ), 07 मार्च 2007

डोगरा रेजिमेंट

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार हरबंस लाल (जेसी-519248एफ), 01 मई 2007

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार प्रीतम चन्द (जेसी-519846वाई), 13 अप्रैल 2007+
(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से)

नायब सूबेदार प्यार चन्द (जेसी-519886ए), 26 मई 2007+
(सूबेदार रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी से)

नायब सूबेदार सीता राम (जेसी-519875एन), 17 मार्च 2007+
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से)

नायब सूबेदार चरण दास (जेसी-519986एल), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार युव राज सिंह (जेसी-519987एन), 10 मार्च 2007+
(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से)

नायब सूबेदार राम सिंह ठाकुर (जेसी-520052ए), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार राजेन्द्र सिंह कैथ (जेसी-519960डब्ल्यू), 22 मई 2007+

(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 फरवरी 2007 से)

नायब सूबेदार विपन कुमार (जेसी-519940एच), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार बचन लाल (जेसी-519968एच), 01 मार्च 2007	नायब सूबेदार किशोरी लाल (जेसी-519996पी), 20 अप्रैल 2007+
नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-519948पी), 27 अप्रैल 2007+	+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से)	नायब सूबेदार चतर सिंह भनियाल (जेसी-520050पी), 30 अप्रैल 2007+
नायब सूबेदार राजेन्द्र कुमार (जेसी-519992वाई), 23 मार्च 2007+	+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से)	नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-520081पी), 09 अप्रैल 2007+
नायब सूबेदार बलदेव कुमार (जेसी-520079एक्स), 04 अप्रैल 2007+	+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से)	नायब सूबेदार रविन्द्र कुमार (जेसी-520025डब्ल्यू), 17 मई 2007+
नायब सूबेदार दीना नाथ (जेसी-520080एम), 09 अप्रैल 2007+	+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से)	नायब सूबेदार राम प्रसाद (जेसी-520121एल), 11 मई 2007+
नायब सूबेदार बाबू राम (जेसी-520089एफ), 01 मार्च 2007	+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)
नायब सूबेदार रमेश चन्द (जेसी-520099एल), 01 मार्च 2007	नायब सूबेदार माही राम शर्मा (जेसी-520070एच), 18 मई 2007+
नायब सूबेदार लेख राज (जेसी-520100पी), 01 मार्च 2007	+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)
नायब सूबेदार परशोतम लाल (जेसी-519989वाई), 13 अप्रैल 2007+	नायब सूबेदार तिलक राज (जेसी-520152एल), 17 मई 2007+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 21 मार्च 2007 से)	+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)
नायब सूबेदार देव राज (जेसी-519853पी), 01 मई 2007+	नायब सूबेदार रमेश कुमार (जेसी-520126के), 14 मई 2007+
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)	+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)
नायब सूबेदार प्रकाश चन्द (जेसी-519957डब्ल्यू), 13 अप्रैल 2007+	नायब सूबेदार वरिन्द्र कुमार (जेसी-520032एम), 01 मई 2007
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)	नायब सूबेदार पृथ्वी बहादुर श्रेष्ठ (जेसी-634608वाई), 01 जनवरी 2007
नायब सूबेदार कुलदीप कुमार (जेसी-519958वाई), 13 अप्रैल 2007+	नायब सूबेदार प्रिय बहादुर थापा (जेसी-634575वाई), 01 मार्च 2007
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)	नायब सूबेदार प्रोलाद राई (जेसी-634602एक्स), 12 मार्च 2007
नायब सूबेदार सुदर्शन सिंह (जेसी-519990एन), 26 मई 2007+	(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से)
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)	नायब सूबेदार गजेंद्र सुब्बा (जेसी-634625वाई), 12 मार्च 2007
नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-519925एन), 01 अप्रैल 2007	(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से)
नायब सूबेदार तारा चन्द (जेसी-519926डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007	नायब सूबेदार राम कुमार राई, एस एम (जेसी-634614एम), 16 मार्च 2007
नायब सूबेदार अशोक कुमार (जेसी-519978एम), 01 मई 2007+	(वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से)
+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से)	दि राजपूत रेजिमेंट
	सूबेदार मेजर के रूप में
	सूबेदार मेजर अजीत सिंह (जेसी-478289एन), 07 अप्रैल 2007

सूबेदार लिपिक के रूप में

सूबेदार लिपिक कुबेर सिंह कुशवाहा (जेसी-479318के), 01 मार्च 2007

सूबेदार के रूप में

सूबेदार जगरूप सिंह परिहार (जेसी-479348एफ), 01 नवम्बर 2006
 सूबेदार अंगूर सिंह (जेसी-479501एम), 01 जनवरी 2007
 सूबेदार ज्ञान चन्द (जेसी-479237के), 07 जनवरी 2007
 सूबेदार महाबीर सिंह (जेसी-479554एल), 08 जनवरी 2007
 सूबेदार जय नारायण (जेसी-479545के), 01 फरवरी 2007
 सूबेदार भीम सेन सिंह (जेसी-479640डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007
 सूबेदार जगननाथ (जेसी-479483पी), 01 मार्च 2007
 सूबेदार धर्मेन्द्र सिंह चौहान (जेसी-479538के), 04 मार्च 2007
 सूबेदार थान सिंह राठौर (जेसी-479277एल), 11 मार्च 2007
 सूबेदार बजरंग लाल गुर्जर (जेसी-479560वाई), 01 अप्रैल 2007
 सूबेदार कतार सिंह (जेसी-479590डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007
 सूबेदार शिव नाथ सिंह (जेसी-479385पी), 01 मई 2007

मराठा लाईट इन्फेन्ट्री

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार प्रकाश विठ्ठल पवार (जेसी-458278ए), 27 अप्रैल 2007+
 +(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)

सूबेदार मेजर लिपिक के रैंक में

सूबेदार लिपिक टी प्रताप सिंह (जेसी-458116पी), 01 मई 2007

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार अण्णासो सुबराव सूर्यवंशी (जेसी-459177वाई), 03 मार्च 2007+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार प्रकाश राजाराम पाटील (जेसी-459245एफ), 13 मार्च 2007+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार नलवडे शहाजी ज्ञानू (जेसी-459128डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार निम्बालकर विठ्ठल लक्ष्मण (जेसी-459236ए), 07 मई 2007+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार जाधव शिवाजी तुकाराम (जेसी-459055पी), 07 मई 2007+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)

नायब सूबेदार बाबु नाईक (जेसी-459180वाई), 01 मई 2007

नायब सूबेदार गायकवाड हनुमंत गहिनीनाथ (जेसी-459225एन), 07 मई 2007

नायब सूबेदार गवस संतोष कृष्णा (जेसी-459300एम), 04 मई 2007+

+(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)

कुमाऊं रेजिमेंट

सूबेदार के पद में

नायब सूबेदार बाला दत्त (जेसी-539615के), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार खड़क सिंह (जेसी-539616एम), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार कृष्ण सिंह (जेसी-539625एन), 01 जुलाई 2007

सूबेदार मेजर के पद में

सूबेदार गोविन्द सिंह (जेसी-538113पी), 22 जनवरी 2007/01 जनवरी 2007*

*(सूबेदार मेजर के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2007 से दी गई है)

सूबेदार क्लर्क देस राज बन्दराल (जेसी-538573डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007

सूबेदार राम सिंह (जेसी-538613एम), 01 अप्रैल 2007

सूबेदार के पद में

नायब सूबेदार लिपिक दीप चन्द्र पाण्डेय (जेसी-538934के), 17 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*(सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई है)

नायब सूबेदार लिपिक श्रीनिवासन थम्पी के (जेसी-538935एम), 14 अक्टूबर 2005/01 अक्टूबर 2005*

*(सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अक्टूबर 2005 से दी गई है)

नायब सूबेदार लिपिक सुरेश सिंह (जेसी-538911एच), 21 दिसम्बर 2005/29 नवम्बर 2005*

*(सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 29 नवम्बर 2005 से दी गई है)

नायब सूबेदार लिपिक दिवान सिंह बोहरा (जेसी-538958एन), 02 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

*(सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार लिपिक राजा राम सिंह (जेसी-539015एफ), 01 जनवरी 2006

नायब सूबेदार लिपिक सुरेश कुमार (जेसी-539016के), 16 जनवरी 2006/01 जनवरी 2006 *

*(सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जनवरी 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार लिपिक भुवन चन्द्र पाठक (जेसी-539017एम), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार लिपिक रमेश चन्द्र जोशी (जेसी-539060एन), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार लिपिक राज कुमार सिंह (जेसी-539082एम), 01 फरवरी 2006

नायब सूबेदार लिपिक नर सिंह बिष्ट (जेसी-539083पी), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार लिपिक ओम प्रकाश (जेसी-539106एल), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार लिपिक रेवा धर उप्रेती (जेसी-539107एन), 01 मार्च 2006

नायब सूबेदार लिपिक राजेन्द्र कुमार गोस्वामी (जेसी-539109वाई), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार लिपिक राम फल (जेसी-539165एक्स), 01 अप्रैल 2006

नायब सूबेदार लिपिक मदन लाल (जेसी-539166ए), 19 अप्रैल 2006/01 अप्रैल 2006 *

*(सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार लिपिक धनपत सिंह (जेसी-539200पी), 14 अगस्त 2006/01 जून 2006 *

*(सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 जून 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार लिपिक राजेन्द्र सिंह (जेसी-539285डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2006

नायब सूबेदार लिपिक लाल बीर प्रसाद सिंह (जेसी-539286वाई), 05 दिसम्बर 2006/01 दिसम्बर 2006 *

*(सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 दिसम्बर 2006 से दी गई है)

नायब सूबेदार लिपिक हरिदास एम के (जेसी-539287एफ), 07 मार्च 2007/23 फरवरी 2007 *

*(सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 23 फरवरी 2007 से दी गई है)

नायब सूबेदार लिपिक माता दीन सैनी (जेसी-539321डब्ल्यू), 13 मार्च 2007/23 फरवरी 2007 *

*(सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 23 फरवरी 2007 से दी गई है)

नायब सूबेदार लिपिक ठीलौन परमजीत सिंह कश्मीर सिंह (जेसी-539326पी), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार लिपिक माम चन्द (जेसी-539341के), 02 अप्रैल 2007/01 अप्रैल 2007 *

*(सूबेदार लिपिक के पद में ज्येष्ठता, वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना दिनांक 01 अप्रैल 2007 से दी गई है)

नायब सूबेदार लिपिक इन्द्र किशन (जेसी-539342एम), 01 मई 2007

पंजाब रेजीमेन्ट

सूबेदार मेजर क्लर्क के रैंक में

सूबेदार क्लर्क दलीप सिंह राणा (जेसी-428566एक्स), 01 अप्रैल 2007

सूबेदार क्लर्क के रैंक में

नायब सूबेदार क्लर्क सुरिन्दर कुमार राणा (जेसी-429436एफ), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार क्लर्क चन्द्र शेखर बौरै (जेसी-429437के), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार क्लर्क मदन लाल शर्मा (जेसी-429547वाई), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार क्लर्क सुरजीत सिंह (जेसी-429438एम), 01 नवम्बर 2006

नायब सूबेदार क्लर्क सतपाल दहिया (जेसी-429575एल), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार क्लर्क बान्के लाल राम (जेसी-429576एन), 01 फरवरी 2007

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार हारे सिंह (जेसी-428742के), 16 जनवरी 2007

सूबेदार जनम चंद कटोच (जेसी-428714एक्स), 01 अप्रैल 2007

सूबेदार जरनैल सिंह (जेसी-428872एम), 01 मई 2007

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार रणजीत सिंह (जेसी-429733पी), 01 जून 2006

नायब सूबेदार लखवीर सिंह (जेसी-429581वाई), 01 अक्टूबर 2006

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-429555एक्स), 05 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार प्रकाश चंद (जेसी-429679एम), 05 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार बहादुर सिंह (जेसी-429768एल), 05 दिसम्बर 2006

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-429744एफ), 01 जनवरी 2007

नायब सूबेदार बीर सिंह (जेसी-429684एक्स), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार सतपाल सिंह (जेसी-429745के), 01 फरवरी 2007

नायब सूबेदार मोहिन्दर सिंह (जेसी-429519एम), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार कुलवन्त सिंह (जेसी-429746एम), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार सुखदेव सिंह (जेसी-429748एक्स), 01 मार्च 2007

नायब सूबेदार विजय कुमार (जेसी-429620एम), 29 मार्च 2007

नायब सूबेदार हरजिन्दर सिंह (जेसी-429499के), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार सुखविन्दर सिंह (जेसी-429580डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार सत पॉल (जेसी-429731के), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार कृष्ण सिंह (जेसी-429708डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार चमन लाल (जेसी-429725डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार दिलबाग सिंह (जेसी-429706एल), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार इन्द्र सिंह (जेसी-429707एन), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार बाज सिंह (जेसी-429722एच), 03 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार अजित सिंह (जेसी-429559एन), 12 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार स्वरण सिंह (जेसी-429732एम), 01 मई 2007

नायब सूबेदार परविन्दर सिंह (जेसी-429777एम), 01 मई 2007

नायब सूबेदार लाल सिंह (जेसी-429752ए), 01 जुलाई 2006

नायब सूबेदार अनूप सिंह (जेसी-429402एन), 01 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार विपिन चंद शर्मा (जेसी-429685ए), 13 अप्रैल 2007

नायब सूबेदार बलविन्दर सिंह (जेसी-429465डब्ल्यू), 01 मई 2007

नायब सूबेदार नाहार सिंह (जेसी-429714के), 01 मई 2007

नायब सूबेदार बलकार सिंह (जेसी-429747पी), 01 मई 2007

नायब सूबेदार सुखबीर सिंह (जेसी-429749ए), 01 मई 2007

एस. अशरफ
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 476, दिनांक 3 सितम्बर 2007.--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों को पदोन्नति करते हैं :-

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा (गैर तकनीकी)

ले. कर्नल के पद पर

नाम, पद, व्यक्तिगत संख्या और पदोन्नति की तिथि

पुडर संजीवी रेड्डी, मेजर, एन टी आर-16637एन--25 मार्च 2007

पी मुरुगोसन, मेजर, एन टी आर-16638डब्ल्यू--25 मार्च 2007

कप्तान से मेजर के पद पर

नाम, पद, व्यक्तिगत संख्या और पदोन्नति की तिथि

अलैकजेंडर के टी, कप्तान, एन टी आर-16709एम--04 अप्रैल 2007

श्रीबन्सा प्रधान, कप्तान, एन टी आर-16710एफ--04 अप्रैल 2007

जसविंदर सिंह, कप्तान, एन टी आर-16685एन--04 अप्रैल 2007

विद्युत मुखर्जी, कप्तान, एन टी आर-16686डब्ल्यू--04 अप्रैल 2007

हेमन्त कुमार त्रिपाठी, कप्तान, एन टी आर-16687वाई--04 अप्रैल 2007

अनिल कुमार, कप्तान, एन टी आर-16688एफ--04 अप्रैल 2007

लेफ्टिनेंट से कप्तान

कप्तान अरूण कुमार गुप्ता (एन टी एस-17486एम अब एन टी आर-16759एक्स), ए एम सी (गैर तकनीकी)--19 मई 2005

कप्तान संजीव कुमार (एन टी एस-17485के अब एन टी आर-16758पी), ए एम सी (गैर तकनीकी)--19 मई 2005

कप्तान मधु के (एन टी एस-17484एम अब एन टी आर-16757एम), ए एम सी (गैर तकनीकी)--19 मई 2005

कप्तान गोलराज सिंह (एन टी एस-17483वाई अब एन टी आर-16756के), ए एम सी (गैर तकनीकी)--19 मई 2005

कप्तान लकपा यालेमु (एन टी एस-17473पी अब एन टी आर-16754वाई), ए एम सी (गैर तकनीकी)--16 दिसम्बर 2004

कप्तान राजु पी (एन टी एस-17472एम अब एन टी आर-16753डब्ल्यू), ए एम सी (गैर तकनीकी)--16 दिसम्बर 2004

कप्तान बी सी ओमप्रकाश (एन टी एस-17409एम अब एन टी आर-16751एल), ए एम सी (गैर तकनीकी)--16 दिसम्बर 2004

कप्तान योगेश एच वी (एन टी एस-17462एच अब एन टी आर-16750एच), ए एम सी (गैर तकनीकी)--16 दिसम्बर 2004

(भारत सरकार के राजपत्र को दिनांक 11 नवम्बर 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का संबंध में जहां तक इन अधिकारियों से है, रद्द किया जाता है।)

लेफ्टिनेन्ट से कप्तान

नाम, पद, व्यक्तिगत संख्या और पदोन्नति की तिथि

मेहन सिंह कपकोटी, लेफ्टी (एन टी आर-16711के), 28 अप्रैल 2007

जयवेलु एस, लेफ्टी (एन टी आर-16712एम), 28 अप्रैल 2007

आय आरकीया सामी, लेफ्टी (एन टी आर-16713पी), 28 अप्रैल 2007

रमेश तिरावियम के, लेफ्टी (एन टी आर-16714एक्स), 28 अप्रैल 2007

कैलाश पी एस, लेफ्टी (एन टी आर-16715ए), 28 अप्रैल 2007

सुनिल वाय, लेफ्टी (एन टी आर-16716एच), 28 अप्रैल 2007

संजीव उनियाल, लेफ्टी (एन टी आर-16718एन), 28 अप्रैल 2007

विनोद कुमार यु, लेफ्टी (एन टी आर-16719डब्ल्यू), 28 अप्रैल 2007

रविन्द्र कुमार मालिक, लेफ्टी (एन टी आर-16720एल), 28 अप्रैल 2007

डी प्रकाश राव, लेफ्टी (एन टी आर-16721एन), 28 अप्रैल 2007

विरेन्द्र कुमार पान्डेय, लेफ्टी (एन टी आर-16723वाई), 28 अप्रैल 2007

नरेन्द्रा सिंह, लेफ्टी (एन टी एस-17506पी), 28 अप्रैल 2007

दल्लिप कुमार, लेफ्टी (एन टी एस-17507एक्स), 28 अप्रैल 2007

बर्गीस के एस, लेफ्टी (एन टी एस-17508ए), 28 अप्रैल 2007

कैलाश चन्द्र, लेफ्टी (एन टी एस-17509एच), 28 अप्रैल 2007

गुरमेन्द्र गिरि, लेफ्टी (एन टी एस-17510एक्स), 28 अप्रैल 2007

तोमर शिव प्रकाश सिंह राजेन्द्र सिंह, लेफ्टी (एन टी एस-17511ए), 28 अप्रैल 2007

जौली सी जोसेफ, लेफ्टी (एन टी एस-17512एच), 28 अप्रैल 2007

बिजीथ कुमार पी एस, लेफ्टी (एन टी एस-17513एल), 28 अप्रैल 2007

नीलाकॅठन पी एस, लेफ्टी (एन टी एस-17514एन), 28 अप्रैल 2007

पराबिन्दर सिंह, लेफ्टी (एन टी एस-17515डब्ल्यू), 28 अप्रैल 2007

सुरेश पी एस, लेफ्टी (एन टी एस-17516वाई), 28 अप्रैल 2007

चन्द्रा प्रकाश, लेफ्टी (एन टी एस-17517एफ), 28 अप्रैल 2007

प्रभाकरन के, लेफ्टी (एन टी एस-17518के), 28 अप्रैल 2007

हरि साई श्रीनिवास, लेफ्टी (एन टी एस-17521के), 28 अप्रैल 2007

संजय कुमार शुक्ला, लेफ्टी (एन टी एस-17522एम), 28 अप्रैल 2007

अभय सिंह, लेफ्टी (एन टी एस-17523पी), 28 अप्रैल 2007

सूरज बसनेट, लेफ्टी (एन टी एस-17524एक्स), 28 अप्रैल 2007

अल्पकालिक सेवा कमीशन

सेना चिकित्सा सेवा

फ्लाईट लेफ्टि से स्काइन लीडर के पद पर

फ्ला. लेफ्टि. वेमनूरी भरत कुमार, एम एस-13764एक्स (ए एफ-25559एफ), 18 जनवरी 2003

फ्ला. लेफ्टि. मंजीथ सिंह परतोला, एम एस-14648एफ (ए एफ-26926एच), 19 फरवरी 2007

फ्ला. लेफ्टि. सोनल शर्मा, एम एस-14661एल (ए एफ-26931बी), 03 मार्च 2007

जी. रवीन्द्र नाथ
ब्रिगेडियर
उप डीजीएफएमएस (पर्स)

सं. 477, दिनांक 30 अगस्त, 2007.--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों की सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं:--

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर बनाया जाता है

कैप्टन एम एस राठोर (टी ए सं.-42081), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

कैप्टन एम सन्धु (टी ए सं.-42194), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

कैप्टन बी एन कुमार नन्दू (टी ए सं.-42208), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

कैप्टन आर एस राय (टी ए सं.-42213), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

कैप्टन पी एस वेद (टी ए सं.-42260), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

कैप्टन डी एम दफेदार (टी ए सं.-42263), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

कैप्टन एन आर देशपाण्डे (टी ए सं.-42269), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

कैप्टन रविन्द्र कुमार (टी ए सं.-42278), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

कैप्टन एस डी शर्मा (टी ए सं.-42283), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

कैप्टन सी पी मार्क (टी ए सं.-42301), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

कैप्टन ए पी शंकरन (टी ए सं.-42322), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

कैप्टन सन्तोष कटोच (टी ए सं.-42325), इन्फैन्ट्री--02 जनवरी 2005

कैप्टन वेदव्रत वैध्या (टी ए सं.-42327), इन्फैन्ट्री--27 जून 2005

कैप्टन पी टी जयराज (टी ए सं.-42336), इन्फैन्ट्री--15 मार्च 2005

कैप्टन एस पी सिंह (टी ए सं.-42341), इन्फैन्ट्री--03 अप्रैल 2005

कैप्टन सी के निगम (टी ए सं.-42346), इन्फैन्ट्री--08 जुलाई 2005

कैप्टन देवेन्द्र सिंह (टी ए सं.-42349), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2006

कैप्टन मनोज कुमार शर्मा (टी ए सं.-42354), इन्फैन्ट्री--03 दिसम्बर 2005

कैप्टन एस गुहानी (टी ए सं.-42376), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2006
 कैप्टन एम कटारीया (टी ए सं.-42387), इन्फैन्ट्री--02 नवम्बर 2006
 कैप्टन वी चतुर्वेदी (टी ए सं.-42438), इन्फैन्ट्री--16 दिसम्बर 2004

एन कालियप्पन
 अवर सचिव

राष्ट्रीय कैडेट कोर

सं. 478, दिनांक 3 सितम्बर 2007.--नीचे दिए गए कुलपतियों के राष्ट्रीय कैडेट कोर में अवैतनिक कर्नल का रैंक दिया जाता है और उन्हें उनके संबंधित विश्वविद्यालयों में कुलपति के रूप में उनकी नियुक्ति की अवधि तक के लिए कर्नल कमांडेन्ट के रूप में नियुक्त किया जाता है जैसा कि उनके नाम के सामने दर्शाया गया है:--

कुलपति का नाम, निदेशालय का नाम, विश्वविद्यालय का नाम और कुलपति के पद पर नियुक्ति की तारीख

डॉ. कमलेश पी जोषीपुरा कुलपति, गुजरात, सौराष्ट्र विश्वविद्यालय, राजकोट, 04 अगस्त 2005

डॉ. आर बी देशमुख कुलपति, महाराष्ट्र, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, अहमदनगर, महाराष्ट्र, 10 फरवरी 2005

डॉ. नागानाथ लालुजीराव कोटापल्ले, कुलपति, महाराष्ट्र, डॉ. बाबासाहेब आम्बेडकर मराठवाडा विश्वविद्यालय, औरंगाबाद, 04 जून 2005

प्रो. सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुलपति, यू ए, एच एन बी गढ़वाल विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तरांचल, 10 मई 2005

डॉ. बी जी मुल्लिमणी कुलपति, कर्नाटका एवं गोवा, गुलबर्गा विश्वविद्यालय, गुलबर्गा, 03 जुलाई 2006

प्रो. अब्दुल वाहिद कुलपति, जे एवं के, कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल, श्रीनगर, 18 दिसम्बर 2004

यू के धर
 ब्रिगेडियर
 उप महानिदेशक (एम एस)

वायु सेना मुख्यालय

सं. 479, दिनांक 28 अगस्त 2007.--राष्ट्रपति सहर्ष श्री नाहर सिंह, वरिष्ठ अनुवादक (अं/हि.) को सशस्त्र सेना मुख्यालय/अंतर सेवा संगठनों में, दिनांक 02 जुलाई 2007 से अगले आदेश तक, सहायक निदेशक (रा.भा.) (ग्रुप ख राजपत्रित), वेतनमान रु. 7,500--12,000/- के पद पर, तदर्थ आधार पर पदोन्नत करते हैं।

ऊपरलिखित अधिकारी की सहायक निदेशक (रा.भा.) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के आधार पर है:--

(क) यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थाई आधार पर की गई है तथा प्रशासनिक कारणों से बिना किसी पूर्व सूचना दिए समाप्त की जा सकती है।

(ख) उपर्युक्त पद पर स्थाई नियुक्ति के लिए उनका न तो कोई दावा होगा न ही उनकी अस्थाई नियुक्ति की अवधि को वरिष्ठता के लिए गिना जाएगा।

शंकर सिंह
 उप मुख्य प्रशासनिक अधिकारी

(सेना शाखा)

सं. 480, दिनांक 3 सितम्बर 2007.--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को दिनांक 04 दिसम्बर 2006 अल्पकालिक सेवा कमीशन (सेना चिकित्सा कोर) से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 10/2001 यथा संशोधित के अधीन उपरोक्त तिथि से स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

नियमित सेवा

स्थायी कमीशन

(सेना चिकित्सा सेवा)(गैर तकनीकी)

लेफ्टिनेन्ट के पद पर

लेफ्टि अरुण कुमार गुप्ता (एन टी एस-17486एम अब एन टी आर-16759एक्स), ए एम सी (गैर तकनीकी), 19 मई 2003

लेफ्टि संजीव कुमार (एन टी एस-17485के अब एन टी आर-16758पी), ए एम सी (गैर तकनीकी), 19 मई 2003

लेफ्टि मधु के (एन टी एस-17484एफ अब एन टी आर-16757एम), ए एम सी (गैर तकनीकी), 19 मई 2003

लेफ्टि गोकराज सिंह (एन टी एस-17483वाई अब एन टी आर-16756के), ए एम सी (गैर तकनीकी), 19 मई 2003

लेफ्टि लकपा यालेमु (एन टी एस-17473पी अब एन टी आर-16754वाई), ए एम सी (गैर तकनीकी), 24 अप्रैल 2002

लेफ्टि राजु पी (एन टी एस-17472एम अब एन टी आर-16753डब्ल्यू), ए एम सी (गैर तकनीकी), 24 अप्रैल 2002

लेफ्टि बी सी ओमप्रकाश (एन टी एस-17469एम अब एन टी आर-16751एल), ए एम सी (गैर तकनीकी), 24 अप्रैल 2002

(भारत सरकार के राजपत्र को दिनांक 24 अप्रैल 2004 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के संबंध जहां तक इन अधिकारियों से है, रद्द किया जाता है।)

लेफ्टि योगेश एच वी (एन टी एस-17462एच अब एन टी आर-16750एच), ए एम सी (गैर तकनीकी), 04 अप्रैल 2001

(भारत सरकार के राजपत्र को दिनांक 05 अक्टूबर 2002 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना के संबंध जहां तक इस अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।)

जी रविन्द्रनाथ
 ब्रिगेडियर
 उप डीजीएफएमएस (पर्स)

सं. 481, दिनांक 30 अगस्त 2007.---राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के आगे दी गई तारीख से उनके द्वारा सेवानिवृत्ति की साधारण आयु प्राप्त कर लेने से पूर्व उनके अनुरोध पर व्यक्तिगत कारणों से सेना सेवा से निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं तथा उनको अधिकारियों के नियमित आरक्षी कोटे (क्लास X) अधिन एस ए आई 10/S/63 यथा संशोधित में स्थानांतरित करते हैं।

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

आईसी-37337 मेजर हरमिन्द्र सिंह परमार, ई एम ई--06 जनवरी 2000 (अ. प्र.)

आईसी-40676 ले. कर्नल (टी एस) शरद कुमार, ई एम ई--02 जनवरी 2002 (पू. व.)

आईसी-41754 मेजर जसवीर सिंह, ई एम ई--11 जून 2003 (अ. प्र.)

आईसी-43185 ले. कर्नल एस एस बी गुरखा, ई एम ई--13 फरवरी 2005 (अ. प्र.)

आईसी-41328 मेजर कंवल किशोर गिरिधर, सिग्नल्स--20 जून 2004 (अ. प्र.)

आईसी-45089 ले. कर्नल (टी एस) मुकेश कुमार चतुर्वेदी, सिग्नल्स--30 नवम्बर 2004 (अ. प्र.)

आईसी-49447 मेजर पेन्ड्याला श्रीनिवास, सिग्नल्स--10 फरवरी 2005 (अ. प्र.)

आईसी-42132 ले. कर्नल (टी एस) प्रवीण कुमार पांडे, सिग्नल्स--04 नवम्बर 2004 (पू. व.)

आईसी-41682 ले. कर्नल (टी एस) दत्ता संजीव, सिग्नल्स--12 जून 2004 (अ. प्र.)

आईसी-37983 ले. कर्नल (टी एस) प्रवीर कुमार सेन, सिग्नल्स--25 अक्टूबर 2004 (अ. प्र.)

आईसी-38365 ले. कर्नल (सलेक्शन) अजय उपेन्द्र जोशी, सिग्नल्स--05 मार्च 2005 (अ. प्र.)

आईसी-40624 मेजर जितेन्द्र सिंह कौडल, सिग्नल्स--14 दिसम्बर 2004 (अ. प्र.)

आईसी-45140 ले. कर्नल महेन्द्र सिंह यादव, ए सी--12 जनवरी 2005 (अ. प्र.)

आईसी-39571 ले. कर्नल रविन्द्रन के, ए सी--20 जनवरी 2006 (अ. प्र.)

आईसी-40037 ले. कर्नल महावीर सिंह हूडा, इन्फैन्ट्री--23 जनवरी 2006 (पू. व.)

आईसी-42277 ले. कर्नल सुकुमार सुधाकर, एम/इन्फैन्ट्री--31 जनवरी 2006 (अ. प्र.)

आईसी-46173 मेजर निरंजन सिंह, एम/इन्फैन्ट्री--30 सितम्बर 2003 (अ. प्र.)

आईसी-39442 ले. कर्नल शुक्ला रोहित, ए सी--01 अक्टूबर 2005 (अ. प्र.)

आईसी-37160 ले. कर्नल (सलेक्शन) टॉम्स ओ सेफ, इंजीनियर--15 सितम्बर 2004 (अ. प्र.)

आईसी-39866 मेजर मन मोहन सिंह थिन्ड, इंजीनियर--20 जून 2004 (अ. प्र.)

आईसी-30960 ले. कर्नल (टी एस) राज कुमार सलारिया, ए. ई. सी.--13 दिसम्बर 2003 (अ. प्र.)

आईसी-40077 ले. कर्नल (टी एस) बलराम सिंह गुलिया, ए. ओ. सी.--31 अक्टूबर 2004 (अ. प्र.)

एस के चक्रवर्ती
संयुक्त निदेशक
एम एस/पी आर

आर्मी शाखा

शुद्धिपत्र

सं. 482, दिनांक 29 अगस्त 2007.--भारत के राजपत्र सं. 8 दिनांक 24 फरवरी 2007 में प्रकाशित अधिसूचना सं. 98 दिनांक 02 फरवरी 2007 शीर्षक 'नियमित सेना' उपशीर्षक 'इन्फैन्ट्री और मैकानाइज्ड' इन्फैन्ट्री रेजिमेन्ट के नीचे निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

नायब सूबेदार के रैंक में

के स्थान पर-- हवलदार रघुवीर सिंह (सं. 14906823 एच जे सी-420563पी) 11 सितम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2006 से दी जाती है)

पढ़ा जाए-- हवलदार रघुवीर सिंह (सं. 14906823 एच जे सी-420563पी) 11 सितम्बर 2006

(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2005 से दी जाती है)

जोस थोमस
अवर सचिव

MINISTRY OF DEFENCE

(FINANCE DIVISION)

New Delhi, the 22nd September 2007

No. 470, dated 29th August 2005.—The President is pleased to appoint Shri Raj Singh Assistant borne on the CSS Cadre of Ministry of Defence as Section Office on ad hoc basis in the Ministry of Defence (Finance Division) in the pay scale of Rs. 6,500-200-10,500/- with effect from 10th July, 2007 to 31st Dec 2007, or till regular officers become available or till further orders whichever is earlier.

The above appointment will be subject to the following conditions :—

- (i) the ad-hoc promotion shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Section Officers' Grade of CSS;
- (ii) the ad-hoc Section Officers will be reverted to Assistants; Grade on availability of regular Section Officers through normal Channels of recruitment as prescribed in the CSS Rules.

R. S. PROACH
Dy. Financial Adviser (E)

ARMY BRANCH

No. 471, dated 3rd September 2005.—The President is pleased to make the following appointment for a period of 5 years under AI 75/78 as amended :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt

Capt Sourav Sinha (MS-14487K), DOC, 19 Dec 2002

With seniority for pay and promotion from 19.06.2002. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published on 30.04.2005 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Yatin Kumar Verma (MS-15305X), DOC, 21 Apr 2006

With seniority for pay and promotion from 21.04.2003. This includes 36 months antedate for Doctor of Medicine (Paediatrics) which will not count for gratuity.

Capt Manish Kumar (MS-15245N), DOC, 21 Apr 2006

With seniority for pay and promotion from 21.04.2003. This includes 36 months antedate for Doctor of Medicine (Paediatrics) which will not count for gratuity.

Capt Jayanta Kumar Biswas (MS-15207X), DOC, 20 Jan 2006

With seniority for pay and promotion from 20.07.2005. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published in so far as it relates to the above named officers is hereby cancelled).

To be Cap (On Probation)

Capt Gupta Neha Ashok (MS-14774N), DOC, 17 Feb 2004

With seniority for pay and promotion from 17.08.2003. This includes 06 months antedate for hospital appointment which will not count for gratuity.

(Ministry of Defence notification published on 3.9.2005 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

Capt Atul Rangi (MS-15299P), AMC, 18 Apr 2006

Capt Ritesh Kumar Singh (MS-15311L), AMC, 22 Sep 2006

Capt Ravi Kant (MS-15312N), AMC, 22 Sep 2006

Capt Jaiveer Singh Khatri (MS-15315F), AMC, 22 Sep 2006

Capt Naveen Kumar (MS-15316K), AMC, 22 Sep 2006

Capt Harvinder Sangwan (MS-15318P), AMC, 22 Sep 2006

Capt Dilesh P K (MS-15319X), AMC, 22 Sep 2006

Capt Reza UL Karim (MS-15320M), AMC, 22 Sep 2006

Capt Drona Sharma (MS-15321P), AMC, 22 Sep 2006

Capt Surabhi Sharma (MS-15323A), AMC, 22 Sep 2006

Capt Abhishek Bhardwaj (MS-15324H), AMC, 22 Sep 2006

Capt Biju R (MS-15347K), AMC, 22 Sep 2006

Capt Arun Yadav (MS-15350K), AMC, 22 Sep 2006

Capt Indrajit Sau (MS-15353X), AMC, 22 Sep 2006

Capt Karan Sud (MS-15355H), AMC, 22 Sep 2006

Capt Magesh Kumar (MS-15360N), AMC, 22 Sep 2006

Capt Vivekanand Saroj (MS-15361W), AMC, 22 Sep 2006

Capt Sandeep Rana (MS-15387L), AMC, 22 Sep 2006

Capt Bharat (MS-15391N), AMC, 22 Sep 2006

Capt Chetna Arora (MS-15392W), AMC, 22 Sep 2006

Capt Marx Chand Lenin (MS-15394F), AMC, 22 Sep 2006

Capt Prabhat Peeyush (MS-15333K), AMC, 22 Sep 2006

Capt Amit Kumar Kamewad (MS-15334M), AMC, 22 Sep 2006

Capt Shvet Dutta (MS-15339L), AMC, 22 Sep 2006

Capt Abhijit Das (MS-15348M), AMC, 22 Sep 2006

Capt Chavan Nayanesh Kashinath (MS-15349P), AMC, 22 Sep 2006

Capt Raj Narayan Mandal (MS-15359Y), AMC, 22 Sep 2006

Capt Makwana Saurabhbbhai Kantibhai (MS-15363F), AMC, 22 Sep 2006

Capt Avinash Mishra (MS-15366P), AMC, 22 Sep 2006

Capt Mohamed Arif Baig (MS-15370X), AMC, 22 Sep 2006

Capt Thoke Santosh Vyankatesh (MS-15371A), AMC, 22 Sep 2006

Capt Lokesh Kumar (MS-15372H), AMC, 22 Sep 2006

Capt Nitin Sharma (MS-15374N), AMC, 22 Sep 2006

Capt Barun Kumar Chakrabarty (MS-15375W), AMC, 22 Sep 2006

Capt Mahender Singh (MS-15377F), AMC, 22 Sep 2006

Capt Anup Prakash B (MS-15379M), AMC, 22 Sep 2006

Capt Pawar Amit Ajay (MS-15380F), AMC, 22 Sep 2006

Capt Rizwan Gouri (MS-15384X), AMC, 22 Sep 2006

Capt Sanjeev S Sharma (MS-15386H), AMC, 22 Sep 2006

Capt Sohan Pal (MS-15388N), AMC, 22 Sep 2006

Capt Usha Premi (MS-15389W), AMC, 22 Sep 2006

Capt Rakesh Kumar (MS-15314Y), AMC, 22 Sep 2006

Capt Mahabur Rahaman (MS-15330W), AMC, 22 Sep 2006

Capt Chetan Pangotra (MS-15335P), AMC, 22 Sep 2006

Capt Joish Upendra Kumar (MS-15336X), AMC, 22 Sep 2006

Capt Kavitha Y (MS-15337A), AMC, 22 Sep 2006

Capt Kotor Koyu (MS-15340A), AMC, 22 Sep 2006

Capt Praveen Kumar (MS-15341H), AMC, 22 Sep 2006

Capt C Lalsangzuala (MS-15343N), AMC, 22 Sep 2006

Capt Sourish Ray (MS-15344W), AMC, 22 Sep 2006

Capt Dhage Satishkumar Raosaheb (MS-15345Y), AMC, 22 Sep 2006

Capt Hrishikesh Magdum (MS-15332P), AMC, 22 Sep 2006

Capt Samrat Ghosh (MS-15356L), AMC, 22 Sep 2006

Capt Sumita Sinha (MS-15357N), AMC, 22 Sep 2006

Capt Jaieel Aparna Bhalchandra (MS-15358W), AMC, 22 Sep 2006

Capt Vikas Kumar (MS-15362Y), AMC, 22 Sep 2006

Capt Arunabha Saha (MS-15365M), AMC, 22 Sep 2006

Capt Abimanyu S (MS-15373L), AMC, 22 Sep 2006

Capt Karande Pravin Narayan (MS-15376Y), AMC, 22 Sep 2006

Capt John Magesh Kumar J (MS-15382M), AMC, 22 Sep 2006

Capt Sumanta Roy (MS-15310H), AMC, 22 Sep 2006

Capt Gursale Amey Ramakant (MS-15313W), AMC, 22 Sep 2006

Capt Dinesh Kumar Kalra (MS-15325L), AMC, 22 Sep 2006

Capt Deepashree (MS-15326N), AMC, 22 Sep 2006

Capt Arunava Mukherjee (MS-15327W), AMC, 22 Sep 2006

Capt Puneet Singh (MS-15328Y), AMC, 22 Sep 2006

Capt Neha Garg (MS-15329F), AMC, 22 Sep 2006

Capt Khaleel M (MS-15331Y), AMC, 22 Sep 2006

Capt Mukesh Kumar (MS-15332F), AMC, 22 Sep 2006

Capt Neeraj Tekkar (MS-15342L), AMC, 22 Sep 2006

Capt Bhabesh Payra (MS-15354A), AMC, 22 Sep 2006

Capt Dhruva Bikas Santra (MS-15367X), AMC, 22 Sep 2006

Capt H Vanlalhruii (MS-15368A), AMC, 22 Sep 2006

Capt Kishore Kumar Dalpati (MS-15397P), AMC, 06 Oct 2006

Capt Neelam (MS-15417X), AMC, 22 Sep 2006

Capt Pankaj Bhandari (MS-15420X), AMC, 06 Oct 2006

Capt Achinta Kr Mallick (MS-15421A), AMC, 06 Oct 2006

Capt Pajai Ravindra Keshaorao (MS-15423L), AMC, 06 Oct 2006

Capt C Malsawmkima (MS-15424N), AMC, 13 Oct 2006

Capt Samuel Lalrintluanga (MS-15425W), AMC, 13 Oct 2006

Capt Dhyade Manoj Kashinathappa (MS-15426Y), AMC, 13 Oct 2006

To be Flt Lt (on probation)

Flt Lt Abhishek Banerjee (MS-15419H), AMC, 22 Sep 2006

Flt Lt Bidkar Naresh Raghunathrao (MS-15470H), AMC, 22 Jan 2007

Flt Lt Biplab Bhowmick (MS-15473W), AMC, 22 Jan 2007

Flt Lt Niroo Sharma (MS-15474Y), AMC, 22 Jan 2007

Flt Lt Santosh Kumar Umar (MS-15476K), AMC, 22 Jan 2007

Flt Lt Ashwini Kumar (MS-15483A), AMC, 22 Jan 2007

Flt Lt K Kamal Hasan (MS-15484H), AMC, 22 Sep 2006

Flt Lt Bhendigiri Shirish Ramesh (MS-15485L), AMC,
22 Sep 2006

Flt Lt Chetan C Patil (MS-15486N), AMC, 22 Sep 2006

G RAVINDRANATH
Bng
Dy DGAFMS (Pers)

NAVY BRANCH

INTEGRATED HQrs—MOD (NAVY)

No. 472, dated 3rd September 2005.—The President is pleased to appoint Shri VK Chhabra, Principal Private Secretary of AFHQ Stenographers Service as Senior Principal Private Secretary (Group 'A' in the Pay Scale of Rs. 12,000-16,500/-) w.e.f. 13 Jul 07.

SHANKAR SINGH
Dy Chief Admn Officer (A)

No. 473, dated 28th August 2005.—The President is pleased to extend the appointment of the following regular Stenographers Grade 'C' borne on the CSSS cadre, presently officiating as Private Secretary on ad-hoc basis, as Private Secretary on ad-hoc basis in the Ministry of Defence in the scale of pay of Rs. 6,500-200-10,500/- for further period mentioned against each or till regular Private Secretaries become available or until further orders, whichever is earlier :—

Sl. No.	Name of the officer	From	To
1	2	3	4
1.	Shri Rajinder Prasad Sharma	1.7.2007	31.12.2007
2.	Shri Narender Chadha	-do-	-do-
3.	Smt Harvinder Chawla	-do-	-do-
4.	Smt Sukhpal Walia	-do-	-do-
5.	Smt Sunita Kohli	-do-	-do-
6.	Shri SC Dhingra	-do-	-do-
7.	Shri R Sankara Narayanan	-do-	-do-
8.	Shri VVN Kutty	-do-	-do-
9.	Smt Nirmal Anand	-do-	-do-
10.	Smt Veena Mehta	-do-	-do-
11.	Smt Santosh Kumari Sharma	-do-	-do-
12.	Smt Janak Chopra	-do-	-do-
13.	Smt Veena Sachdeva	-do-	-do-

1	2	3	4
14.	Shri HR Dhiman	1.7.2007	31.12.2007
15.	Smt. Chander Kanta Kalra	-do-	-do-
16.	Smt Vijay Narang	-do-	-do-
17.	Smt Mariamma George	-do-	-do-
18.	Shri Bal Krishan Singh	-do-	-do-
19.	Smt A Ganga	-do-	-do-
20.	Shri Ashok Kumar	-do-	-do-
21.	Smt Shakti Bala Bakshi	-do-	-do-
22.	Shri Nand Kishore	-do-	-do-
23.	Shri Dharam Vir	-do-	-do-
24.	Shri S Nagarajan	-do-	-do-
25.	Shri RK Sethi	-do-	-do-
26.	Shri Mohd Gohar Hussain	-do-	-do-
27.	Shri Rajinder Prasad	-do-	-do-
28.	Shri Harbans Lal	-do-	-do-
29.	Shri Anil Kumar	-do-	-do-

2. The ad-hoc appointment shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS (Private Secretary).

3. The Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

S K DEB
Under Secy.

ARMY BRANCH

No. 474, dated 29th August 2007.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

ARMoured CORPS

To be Substantive Risaldar

Naib Risaldar Harbans Singh (JC-240074F), 01 Sep 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Davendra Singh (JC-240123Y), 01 Oct 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2005 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Jatinder Singh (JC-239282K), 17 Sep 2005*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 13 Jul 2005 without effect on pay and allowances).

- Naib Risaldar Girish Chandra (JC-239638M), 11 Mar 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Sep 2005 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar P Obula Reddy (JC-238992M), 04 Jan 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Jatinder Singh (JC-239205P), 29 Mar 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 04 Dec 2005 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Rajesh Kumar (JC-239812Y), 01 Dec 2005
- Naib Risaldar Radhe Shyam Singh (JC-239639P), 18 Mar 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Satbir (JC-239380K), 01 Apr 2006
- Naib Risaldar Karambir (JC-240464K), 01 Apr 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2005 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Diwan Singh Phogat (JC-239888N), 01 Feb 2006
- Naib Risaldar Rajendra Babu Saxena (JC-240047X), 01 Apr 2006
- Naib Risaldar Shashi Kant Mishra (JC-240030K), 03 Apr 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Siddhana Gouda Kashinakunti (JC-240575F), 04 May 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 22 Jan 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Raghunath Singh (JC-239699K), 08 May 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Raja Sekharan Nair G (JC-240596X), 31 May 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 14 Mar 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Yamin Khan (JC-238248X), 24 Apr 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Paidi Nanderu (JC-239649Y), 21 Apr 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Nand Ram (JC-239320P), 27 Apr 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Fazlur Rahaman Shaikh (JC-239405L), 27 Apr 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Harendra Nath Bordalai (JC-239973W), 15 May 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Rajender Prasad (JC-239810H), 01 May 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Dev Raj Malkania (JC-239536W), 18 May 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 14 Apr 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Prem Nath Singh (JC-239858W), 01 May 2006
- Naib Risaldar Gurwinder Singh (JC-239803M), 01 May 2006
- Naib Risaldar Kabindra Prasad Singh (JC-240131X), 03 May 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Tikeshwar Ram (JC-240443N), 05 Jun 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Dec 2005 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Patole Krishna Nath Dinkar (JC-239600H), 31 May 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Barbole Ram Chandra Audumbar (JC-240335K), 12 May 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Mahavir Singh (JC-240623W), 22 May 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 08 Mar 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Gurmit Singh (JC-240118N), 02 Apr 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).
- Naib Risaldar Shyam Lal (JC-240521A), 28 Jun 2006*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Beg Singh Tanwar (JC-240528K), 16 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 22 Feb 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Damor Bhura Bhai Samji Bhai (JC-240567H), 05 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Nikhil Datta (JC-239860N), 07 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 27 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Baldev Singh (JC-239931K), 01 Jun 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 06 May 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Ramjiban Shannigrahi (JC-239482A), 08 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Ram Bhajan Bhardwaj (JC-239547H), 08 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 09 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Balbir Singh (JC-240388H), 01 Aug 2006

Naib Risaldar Sultan Singh (JC-240094P), 31 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Kishor Singh (JC-239863F), 29 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Kampayya Mathapati (JC-238478L), 31 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Rajpal Singh (JC-240604L), 26 Jul 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Ashish Kumar Biswas (JC-240119W), 15 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 14 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Raghunath Singh (JC-240458W), 01 Aug 2006

Naib Risaldar Charan Singh (JC-240436X), 01 Aug 2006

Naib Risaldar Sukhdab Singh (JC-240769K), 08 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Faquir Chand (JC-240864W), 06 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jan 2005 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Bijay Kumar Singh (JC-240008Y), 04 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Ranbir Singh (JC-239783X), 09 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 04 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Ram Dev (JC-240313L), 21 Sep 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Jul 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar Surender Singh Dalal (JC-239846F), 01 Aug 2006*

Naib Risaldar Joginder Paul Sharma (JC-240455H), 09 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

Naib Risaldar S Arokkia Samy (JC-240433K), 12 Aug 2006*

*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Aug 2006 without effect on pay and allowances).

THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Naib Subedar

Hav Madan Lal (No. 14907251Y Now JC-420712X), 15 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Bir Singh (No. 14907341A Now JC-420713A), 11 Apr 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 05 Feb 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Ravi Singh (No. 14907350F Now JC-420714H), 11 Apr 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Ashok Kumar (No. 14907359W Now JC-420715L), 11 Apr 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Mool Singh (No. 14907794L Now JC-420716N), 16 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Shiv Kumar (No. 14910390N Now JC-420717W),
05 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Kanhiya (No. 14910775L Now JC-420718Y), 25 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Lakshman Singh (No. 14907851F Now JC-420719F),
28 Apr 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Basawa Nand (No. 14910349X Now JC-420720W),
11 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 03 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Mohan Singh Rawat (No. 14908227P Now JC-420721Y), 18 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 25 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Manver Singh (No. 14908185N Now JC-420722F),
15 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 30 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Ananda Chandra Saha (No. 14907445F Now JC-420723K), 15 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 30 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Awdesh Pratap Singh (No. 14908343X Now JC-420724M), 15 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 30 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Pooran Ram (No. 14910277Y Now JC-420725P),
15 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 30 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Roshan Lal (No. 14906664W Now JC-420726X),
10 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 May 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Indu Narayan Mishra (No. 14907954A Now JC-420727A), 01 May 2007

Hav Raja Gopalan P (No. 14909878X Now JC-420728H),
03 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 May 2007 without effect on pay and allowances).

Hav Satya Prakash (No. 14909477H Now JC-420729L),
01 May 2007

Hav Subash Chander (No. 14909928X Now JC-420730A),
24 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 16 May 2007 without effect on pay and allowances).

INFANTRY

BRIGADE OF THE GUARDS

To be Subedar Major

Sub Biddappa BU (JC-402328N), 07 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar Major without effect on pay and allces wef 01 May 2007).

To be Subedar

Nb Sub Bipul Kumar Gogoi (JC-403341K), 29 Mar 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 14 Jan 2007).

Nb Sub Ravinder Kumar (JC-403413H), 15 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Mar 2007).

Nb Sub Yatapu Venkata Rami Reddy (JC-403455P),
01 Mar 2007

Nb Sub Krishna Bihari (JC-403532Y), 01 Mar 2007

Nb Sub Parimal Singh Gurjar (JC-403427H), 08 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Apr 2007).

Nb Sub Shivaraj Patil (JC-403438P), 26 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Apr 2007).

Nb Sub Parmatma Nand Tiwari (JC-403501Y), 01 Apr 2007

Nb Sub A Venkataramana Raju (JC-403506X), 01 Apr 2007

Nb Sub Rajesh (JC-403536P), 28 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Apr 2007).

Nb Sub Prem Pal Singh (JC-403595F), 01 Apr 2007

Nb Sub Partap Singh (JC-403596K), 01 Apr 2007

Nb Sub Gyanesh (JC-403597M), 01 Apr 2007

Nb Sub Rajesh Kumar (JC-403564F), 11 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 08 Apr 2007).

Nb Sub Rajendra Kumar (JC-403273F), 29 Apr 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 15 Apr 2007).

Nb Sub Bhaskaran CT (JC-403225F), 15 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 05 May 2007).

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Shesh Dev Mishra (JC-403666X), 01 May 2007

To be Subedar Major (Clerk)

Sub (Clk) Prakash Chandra (JC-402467X), 03 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar Major (Clerk) without effect on pay and allces wef 01 Jun 2007).

To be Subedar

Nb Sub Ram Awadhesh Singh (JC-403400L), 28 Mar 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Dec 2006).

Nb Sub Chand Mohammed (JC-403471M), 01 Mar 2007

Nb Sub Subhas Chandra (JC-403535M), 19 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 26 Mar 2007).

Nb Sub Ratheeshan K (JC-403473X), 16 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 01 Apr 2007).

Nb Sub Mahabir Singh (JC-403458H), 29 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 23 Apr 2007).

Nb Sub Surander Pal Singh (JC-403599X), 01 May 2007

Nb Sub Krishan Singh (JC-403346H), 20 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Subedar without effect on pay and allces wef 03 Jun 2007).

Nb Sub Yash Pal Singh (JC-403388P), 01 Jul 2007

Nb Sub Hira Singh (JC-403397W), 01 Jul 2007

Nb Sub Harihar Singh Kushwaha (JC-403649X), 01 Jul 2007

To be Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Syed Usman Saeed (JC-403468M), 01 Jun 2007

To be Nb Sub

Hav Narendra Kumar Pathak (No. 13688864F now JC-404082Y), 28 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Mar 2007).

Hav Jai Ram Gena (No. 13689050P now JC-404089H), 14 Apr 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 01 Apr 2007).

Hav Chandra Prakash (No. 13689107Y now JC-404090X), 01 Apr 2007

Hav Rajendra Prasad (No. 13688898P now JC-404106X), 29 Apr 2007

Hav Rajesh Kumar Singh (No. 13689060Y now JC-404107A), 09 May 2007

Hav Ritu Ranjan Singh (No. 13689144M now JC-404108H), 09 May 2007

Hav Ranjit Singha (No. 13686442X now JC-404111H), 01 Jul 2007

Hav Arvind Kumar (No. 13686070X now JC-404112L), 01 Jul 2007

Hav Janak Raj Sharma (No. 13687508P now JC-404113N), 01 Jul 2007

Hav Sherpa Ten Singh (No. 13687946X now JC-404114W), 01 Jul 2007

To be Nb Sub (Clk)

Hav (Clk) Shamshad Alam (No. 13692621N now JC-404109L), 01 Jun 2007

To be Nb Sub

Hav Niranjana Kar (No. 13685083H now JC-404099M), 06 Apr 2007

Hav Prasannan KS (No. 13688222M now JC-404100W), 12 Apr 2007

Hav Layak Ram Chaurasiya (No. 13685147H now JC-404101Y), 15 Apr 2007

Hav Mahesh Chander (No. 13685499A now JC-404102F), 15 Apr 2007

Hav Jagdish Singh (No. 13685539W now JC-404103K), 15 Apr 2007

Hav Amrik Singh (No. 3383676A now JC-404104M), 20 Apr 2007

Hav K Venkata Papi Reddy (No. 13689385M now JC-404105P), 18 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on pay and allces wef 23 Apr 2007).

Hav Uday Raj Pal (No. 13691366A now JC-404059I),
03 Mar 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allces wef 01 Dec 2006).

Hav Jagbir Singh (No. 13688989Y now JC-404060A),
09 Apr 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allces wef 01 Jan 2007).

Hav Bhondave Daraknath Kisan (No. 13686653A now
JC-404061H), 01 Feb 2007

Hav S Gopalakrishnan (No. 13689705W now JC-404069P),
01 Mar 2007

Hav Narasinga Rao Kottapalli (No. 13688976F now JC-
404074A), 11 Apr 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allces wef 12 Mar 2007).

Hav Aman Chandra Ahirwar (No. 13689271F now JC-
404076L), 25 Mar 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allces wef 01 Aug 2006).

Hav Kanhaya Bux Singh (No. 13688324H now JC-
404077N), 25 Mar 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allces wef 01 Sep 2006).

Hav Shatrugan Singh, SM (No. 13688503H now JC-
404078W), 16 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allces wef 01 Dec 2006).

Hav Ram Chander (No. 13688696N now JC-404079Y),
29 Jan 2007

Hav Arokiadoss G (No. 13689032M now JC-404081W),
22 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allces wef 01 Mar 2007).

Hav Surendra Pratap Dubey (No. 13688867P now JC-
404083F), 04 Mar 2007

Hav Sahi Ram (No. 13687772H now JC-404084K), 27 Mar
2007

Hav Jaswant Singh (No. 13689639Y now JC-404085M),
28 Mar 2007

Hav Satish Kumar Singh (No. 13689165H now JC-404086P),
26 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allces wef 01 Apr 2007).

Hav Munna Lal (No. 13688886A now JC-404088A),
12 Apr 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allces wef 01 Apr 2007).

Hav Matha Sharan Pathak (No. 13687917H now JC-
404091A), 01 Apr 2007

Hav Lal Bahadur (No. 13691367H now JC-404092H),
01 Apr 2007

Hav Ashok Kumar Misra (No. 13691539M now JC-
404093L), 01 Apr 2007

Hav Harish Kumar (No. 13690277P now JC-404094N),
11 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allces wef 06 Apr 2007).

Hav Shyam Sunder (No. 13690472M now JC-404095W),
11 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allces wef 08 Apr 2007).

Hav Ashok Kumar (No. 13687588X now JC-404096Y),
14 May 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allces wef 15 Apr 2007).

Hav Mahender Singh (No. 13687948H now JC-404097F),
02 May 2007

Hav Kanwar Singh (No. 13688197Y now JC-404098K),
10 Jun 2007*

*(Gtd seniority in the rank of Nb Sub without effect on
pay and allces wef 05 May 2007).

To be Nb Sub (SKT)

Hav (SKT) Kamal Kishor (No. 13687755H now JC-
404080N), 01 Mar 2007

JOSE THOMAS
Under Secy.

No. 475, dated 28th August 2007—The President is
pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

INFANTRY

4 GR

To be Subedar

Nb Sub Bir Bahadur Thapa (JC-612507L), 01 Apr 2006

Nb Sub Bir Dhan Gurung (JC-612506H), 01 Apr 2006

Nb Sub Ram Bahadur Thapa (JC-612545F), 01 Jun 2006*

*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Aug
2005).

Nb Sub Narendra Kumar (JC-612555L), 01 Jun 2006*

*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Oct
2005).

Nb Sub Kul Man Pun (JC-612574W), 01 Jun 2006*

*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Dec 2005).

Nb Sub Bir Bahadur Rana (JC-612576F), 01 Jun 2006*

*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Dec 2005).

Nb Sub Harka Bahadur Pun (JC-612577K), 01 Jun 2006*

*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Jan 2006).

Nb Sub Tek Raj Gurung (JC-612568H), 01 Jun 2006*

*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 01 Apr 2006).

Nb Sub Dhir Bahadur Gurung (JC-612569L), 01 Jun 2006*

*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 11 Apr 2006).

Nb Sub Pitambar Ale (JC-612583X), 01 Jun 2006*

*(Gtd seniority w/o effect on pay & allces wef 28 Apr 2006).

Nb Sub Top Bahadur Thapa (JC-612518X), 01 Jul 2006

Nb Sub Bhim Bahadur Thapa (JC-612535X), 01 Jul 2006

Nb Sub Tula Ram Gurung (JC-612541L), 04 Aug 2006

Nb Sub Eman Singh Rana (JC-612521X), 01 Sep 2006

Nb Sub Uttar Singh Gurung (JC-612543W), 01 Sep 2006

Nb Sub Ganesh Bahadur Bura (JC-612550M), 01 Sep 2006

Nb Sub Dil Bahadur Pun, SM (JC-612552X), 01 Oct 2006

Nb Sub Kul Bahadur Gurung (JC-612553A), 01 Oct 2006

Nb Sub Pirth Bahadur Pun (JC-612554H), 01 Oct 2006

Nb Sub Jit Bahadur Gurung (JC-612547M), 01 Oct 2006

Nb Sub Tarka Bahadur Rana (JC-612548P), 01 Oct 2006

Nb Sub Tej Kumar Gurung (JC-612598L), 01 Oct 2006

Nb Sub Fan Bahadur Gurung (JC-612600M), 13 Oct 2006

Nb Sub Dev Bahadur Gurung (JC-612539N), 01 Nov 2006

Nb Sub Ganga Bahadur Thapa (JC-612559F), 01 Dec 2006

Nb Sub Bhadra Bahadur Pun (JC-612578M), 01 Jan 2007

Nb Sub Dil Bahadur Rana (JC-612538L), 01 Feb 2007

Nb Sub Har Kumar Srish (JC-612612F), 01 Feb 2007

Nb Sub Mingma Tenjee Sherpa (JC-612540H), 01 Mar 2007

Nb Sub Sanjay Gurung (JC-612527Y), 01 Mar 2007

Nb Sub Samar Vijay (JC-612588W), 01 Mar 2007

Nb Sub Anand Kumar (JC-612591W), 01 Mar 2007

Nb Sub Hom Bahadur Gurung (JC-612592Y), 01 Mar 2007

Nb Sub Ram Bahadur Thapa (JC-612564M), 01 Apr 2007

Nb Sub Lok Bahadur Thapa (JC-612565P), 01 May 2007

Nb Sub Ben Bahadur Gurung (JC-612571H), 01 May 2007

Nb Sub Gagan Bahadur Pun (JC-612581M), 01 May 2007

Nb Sub Hum Bahadur Thapa (JC-612582P), 01 May 2007

Nb Sub Shree Prasad Gurung (JC-612593F), 07 Mar 2007

THE DOGRA REGIMENT

To be Sub Maj

Sub Harbans Lal (JC-519248F), 01 May 2007

To be Sub

Nb Sub Pritam Chand (JC-519846Y), 13 Apr 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Piar Chand (JC-519886A), 26 May 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Sita Ram (JC-519875N), 17 Mar 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Charan Dass (JC-519986L), 01 Feb 2007

Nb Sub Yuv Raj Singh (JC-519987N), 10 Mar 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ram Singh Thakur (JC-520052A), 01 Feb 2007

Nb Sub Rajender Singh Kaith (JC-519960W), 22 May 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 23 Feb 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Vipran Kumar (JC-519940H), 01 Mar 2007

Nb Sub Bachan Lal (JC-519968H), 01 Mar 2007

Nb Sub Ramesh Chand (JC-519948P), 27 Apr 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Rajinder Kumar (JC-519992Y), 23 Mar 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Baldev Kumar (JC-520079X), 04 Apr 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Dina Nath (JC-520080M), 09 Apr 2007+

+(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Babu Ram (JC-520089F), 01 Mar 2007
 Nb Sub Ramesh Chand (JC-520099L), 01 Mar 2007
 Nb Sub Lekh Raj (JC-520100P), 01 Mar 2007
 Nb Sub Parshotam Lal (JC-519989Y), 13 Apr 2007+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 21 Mar 2007 without effect on pay & allowances).
 Nb Sub Dev Raj (JC-519853P), 01 May 2007+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay & allowances).
 Nb Sub Parkash Chand (JC-519957W), 13 Apr 2007+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay & allowances).
 Nb Sub Kuldip Kumar (JC-519958Y), 13 Apr 2007+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay & allowances).
 Nb Sub Sudershan Singh (JC-519990N), 26 May 2007+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay & allowances).
 Nb Sub Vijay Kumar (JC-519925N), 01 Apr 2007
 Nb Sub Tara Chand (JC-519926W), 01 Apr 2007
 Nb Sub Ashok Kumar (JC-519978M), 01 May 2007+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay & allowances).
 Nb Sub Kishori Lal (JC-519996P), 20 Apr 2007+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay & allowances).
 Nb Sub Chatter Singh Bhanial (JC-520050P), 30 Apr 2007+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay & allowances).
 Nb Sub Vijay Kumar (JC-520081P), 09 Apr 2007+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay & allowances).
 Nb Sub Ravinder Kumar (JC-520025W), 17 May 2007+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay & allowances).
 Nb Sub Ram Parshad (JC-520121L), 11 May 2007+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay & allowances).
 Nb Sub Mahi Ram Sharma (JC-520070H), 18 May 2007+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay & allowances).
 Nb Sub Tilak Raj (JC-520152L), 17 May 2007+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay & allowances).

Nb Sub Ramesh Kumar (JC-520126K), 14 May 2007+
 +(Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2007 without effect on pay & allowances).
 Nb Sub Varinder Kumar (JC-520032M), 01 May 2007

11 GR

To be Sub —

Nb Sub Prithvi Bahadur Shrestha (JC-634608Y), 01 Jan 2007
 Nb Sub Prith Bahadur Thapa (JC-634575Y), 01 Mar 2007
 Nb Sub Prolad Rai (JC-634602X), 12 Mar 2007+
 +(Granted seniority without effect on pay and allces wef 01 Mar 2007).
 Nb Sub Gajendra Subba (JC-634625Y), 12 Mar 2007+
 +(Granted seniority without effect on pay and allces wef 01 Mar 2007).
 Nb Sub Ram Kumar Rai, SM (JC-634614M), 16 Mar 2007+
 +(Granted seniority without effect on pay and allces wef 01 Mar 2007).

THE RAJPUT REGIMENT

To be Subedar Major —

Sub Maj Ajit Singh (JC-478289N), 07 Apr 2007

To be Subedar Clk

Sub Clk Kuber Singh Kushwaha (JC-479318K), 01 Mar 2007

To be Subedar

Sub Jagroop Singh Parihar (JC-479348F), 01 Nov 2006
 Sub Angoor Singh (JC-479501M), 01 Jan 2007
 Sub Gyan Chand (JC-479237K), 07 Jan 2007
 Sub Mahavir Singh (JC-479554L), 08 Jan 2007
 Sub Jai Narain (JC-479545K), 01 Feb 2007
 Sub Bhim Sen Singh (JC-479640W), 01 Feb 2007
 Sub Jagan Nath (JC-479483P), 01 Mar 2007
 Sub Dharmendra Singh Chauhan (JC-479538K), 04 Mar 2007
 Sub Than Singh Rathore (JC-479277L), 11 Mar 2007
 Sub Bajrang Lal Gurjar (JC-479560Y), 01 Apr 2007
 Sub Kattar Singh (JC-479590W), 01 Apr 2007
 Sub Shiv Nath Singh (JC-479385P), 01 May 2007

THE MARATHA LI

To be Sub Maj

Sub Prakash Vithal Pawar (JC-458278A), 27 Apr 2007*
 *(Granted seniority in the rank of Sub Maj wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

To be Sub Maj Clk

Sub Clk T Pratap Singh (JC-458116P), 01 May 2007

To be Sub

Nb Sub Annaso Subrao Suryawanshi (JC-459177Y), 03 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Feb 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Prakash Rajaram Patil (JC-459245F), 13 Mar 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Nalawade Shahaji Dnyanu (JC-459128W), 01 Apr 2007

Nb Sub Nimbalkar Vithal Laxman (JC-459236A), 07 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Jadhav Shivaji Tukaram (JC-459055P), 07 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Babu Naik (JC-459180Y), 01 May 2007

Nb Sub Gayakwad Hanumant Gahininath (JC-459225N), 01 May 2007

Nb Sub Gawas Santosh Krishna (JC-459300M), 04 May 2007*

*(Granted seniority in the rank of Sub wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances).

THE KUMAON REGIMENT

To be Sub

Nb Sub Bala Datt (JC-539615K), 01 Apr 2007

Nb Sub Kharak Singh (JC-539616M), 01 Apr 2007

Nb Sub Krishan Singh (JC-539625N), 01 Jul 2007

To be Sub Maj

Sub Govind Singh (JC-538113P), 22 Jan 2007/01 Jan 2007*

*(Granted ante date seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jan 2007 without effect on pay and allowances).

Sub Clk Des Raj Bandral (JC-538573W), 01 Jan 2007

Sub Ram Singh (JC-538613M), 01 Apr 2007

To be Sub

Nb Sub Clk Deep Chandra Pandey (JC-538934K), 17 Oct 2005/01 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Sreenivasan Thampy K (JC-538935M), 14 Oct 2005/01 Oct 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Suresh Singh (JC-538911H), 21 Dec 2005/29 Nov 2005*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef 29 Nov 2005 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Diwan Singh Bohara (JC-538958N), 02 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Raja Ram Singh (JC-539015F), 01 Jan 2006

Nb Sub Clk Suresh Kumar (JC-539016K), 16 Jan 2006/01 Jan 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Jan 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Bhuwan Chandra Pathak (JC-539017M), 01 Feb 2006

Nb Sub Clk Ramesh Chandra Joshi (JC-539060N), 01 Feb 2006

Nb Sub Clk Raj Kumar Singh (JC-539082M), 01 Feb 2006

Nb Sub Clk Nar Singh Bisht (JC-539083P), 01 Mar 2006

Nb Sub Clk Om Prakash (JC-539106L), 01 Mar 2006

Nb Sub Clk Rewa Dhar Upreti (JC-539107N), 01 Mar 2006

Nb Sub Clk Rajinder Kumar Goswami (JC-539109Y), 01 Apr 2006

Nb Sub Clk Ram Phal (JC-539165X), 01 Apr 2006

Nb Sub Clk Madan Lal (JC-539166A), 19 Apr 2006/01 Apr 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Apr 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Dhanpat Singh (JC-539200P), 14 Aug 2006/01 Jun 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Jun 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Rajinder Singh (JC-539285W), 01 Sep 2006

Nb Sub Clk Lal Bir Prasad Singh (JC-539286Y), 05 Dec 2006/01 Dec 2006*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef 01 Dec 2006 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Haridas MK (JC-539287F), 07 Mar 2007/23 Feb 2007*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef 23 Feb 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Mata Deen Saini (JC-539321W), 13 Mar 2007/
23 Feb 2007*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef
23 Feb 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Dhillon, Paramjit Singh Kashmir Singh
(JC-539326P), 01 Apr 2007

Nb Sub Clk Mam Chand (JC-539341K), 02 Apr 2007/01
Apr 2007*

*(Granted ante date seniority in the rank of Sub Clk wef
01 Apr 2007 without effect on pay and allowances).

Nb Sub Clk Inder Krishen (JC-539342M), 01 May 2007

THE PUNJAB REGIMENT

To be Subedar Maj Clerks

Sub Clk Dalip Singh Rana (JC-428566X), 01 Apr 2007

To be Subedar Clerks

Nb Sub Clk Surinder Kumar Rana (JC-429436F), 01 Oct
2006

Nb Sub Clk Chandra Shekhar Bourai (JC-429437K),
01 Oct 2006

Nb Sub Clk Madan Lal Sharma (JC-429547Y), 01 Oct 2006

Nb Sub Clk Surjit Singh (JC-429438M), 01 Nov 2006

Nb Sub Clk Satpal Dahiya (JC-429575L), 01 Jan 2007

Nb Sub Clk Banke Lal Ram (JC-429576N), 01 Feb 2007

To be Subedar Maj

Sub Hari Singh (JC-428742K), 16 Jan 2007

Sub Janam Chand Katoch (JC-428714X), 01 Apr 2007

Sub Jarnail Singh (JC-428872M), 01 May 2007

To be Subedars

Nb Sub Ranjit Singh (JC-429733P), 01 Jun 2006

Nb Sub Lakhvir Singh (JC-429581Y), 01 Oct 2006

Nb Sub Dilbagh Singh (JC-429555X), 05 Dec 2006

Nb Sub Parkash Chand (JC-429679M), 05 Dec 2006

Nb Sub Bahadur Singh (JC-429768L), 05 Dec 2006

Nb Sub Balwinder Singh (JC-429744F), 01 Jan 2007

Nb Sub Bir Singh (JC-429684X), 01 Feb 2007

Nb Sub Satpal Singh (JC-429745K), 01 Feb 2007

Nb Sub Mohinder Singh (JC-429519M), 01 Mar 2007

Nb Sub Kulwant Singh (JC-429746M), 01 Mar 2007

Nb Sub Sukhdev Singh (JC-429748X), 01 Mar 2007

Nb Sub Vijay Kumar (JC-429620M), 29 Mar 2007

Nb Sub Harjinder Singh (JC-429499K), 01 Apr 2007

Nb Sub Sukhwinder Singh (JC-429580W), 01 Apr 2007

Nb Sub Sat Paul (JC-429731K), 01 Apr 2007

Nb Sub Krishan Singh (JC-429708W), 01 Apr 2007

Nb Sub Chaman Lal (JC-429725W), 01 Apr 2007

Nb Sub Dilbag Singh (JC-429706L), 01 Apr 2007

Nb Sub Inder Singh (JC-429707N), 01 Apr 2007

Nb Sub Baj Singh (JC-429722H), 03 Apr 2007

Nb Sub Ajit Singh (JC-429559N), 12 Apr 2007

Nb Sub Swaran Singh (JC-429732M), 01 May 2007

Nb Sub Parvinder Singh (JC-429777M), 01 May 2007

Nb Sub Lal Singh (JC-429752A), 01 Jul 2006

Nb Sub Anup Singh (JC-429402N), 01 Apr 2007

Nb Sub Vipin Chand Sharma (JC-429685A), 13 Apr 2007

Nb Sub Balwinder Singh (JC-429465W), 01 May 2007

Nb Sub Nahar Singh (JC-429714K), 01 May 2007

Nb Sub Balkar Singh (JC-429747P), 01 May 2007

Nb Sub Sukhbir Singh (JC-429749A), 01 May 2007

S. ASHRAF
Under Secy.

No. 476, dated 3rd September 2007—The President is
pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Major to Lt Col

Rank, Name (Personal No.), Date of Promotion

Maj Puttur Sanjeevi Reddy (NTR-16637N), 25 Mar 2007

Maj P Murugesan (NTR-16638W), 25 Mar 2007

Capt to Major

Capt Alexander K T (NTR-16709M), 04 Apr 2007

Capt Sribatsha Pradhan (NTR-16710F), 04 Apr 2007

Capt Jasvinder Singh (NTR-16685N), 04 Apr 2007

Capt Vidyut Mukherjee (NTR-16686W), 04 Apr 2007

Capt Hemant Kumar Tripathi (NTR-16687Y), 04 Apr 2007

Capt Anil Kumar (NTR-16688F), 04 Apr 2007

Lt to Capt

Capt Arun Kumar Gupta (NTS-17486M Now NTR-16759X)
AMC (NT), 19 May 2005

Capt Sanjeev Kumar (NTS-17485K Now NTR-16758P)
AMC (NT), 19 May 2005

Capt Madhu, K (NTS-17484F Now NTR-16757M) AMC (NT), 19 May 2005

Capt Gokaran Singh (NTS-17483Y Now NTR-16756K) AMC (NT), 19 May 2005

Capt Lakpa Yelmu (NTS-17473P Now NTR-16754Y) AMC (NT), 16 Dec 2004

Capt Raju, P (NTS-17472M Now NTR-16753W) AMC (NT), 16 Dec 2004

Capt BC Om Prakash (NTS-17469M Now NTR-16751L) AMC (NT), 16 Dec 2004

Capt Yogesh, HV (NTS-17462H Now NTR-16750H) AMC (NT), 16 Dec 2004

Lt Mohan Singh Kapkoti (NTR-16711K), 28 Apr 2007

Lt Jayavelu S (NTR-16712M), 28 Apr 2007

Lt I Arockia Samy (NTR-16713P), 28 Apr 2007

Lt Ramesh Thiraviam K (NTR-16714X), 28 Apr 2007

Lt Kailas P S (NTR-16715A), 28 Apr 2007

Lt Sunil Y (NTR-16716H), 28 Apr 2007

Lt Sanjeev Uniyal (NTR-16718N), 28 Apr 2007

Lt Vinod Kumar U (NTR-16719W), 28 Apr 2007

Lt Ravindra Kumar Malik (NTR-16720L), 28 Apr 2007

Lt D Prakash Rao (NTR-16721N), 28 Apr 2007

Lt Virendra Kumar Pandey (NTR-16723Y), 28 Apr 2007

SHORT SERVICE COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

Lt to Capt

Rank Name (Personal No.), Date of Promotion

Lt Narendra Singh (NTS-17506P), 28 Apr 2007

Lt Daleep Kumar (NTS-17507X), 28 Apr 2007

Lt Varghese K Y (NTS-17508A), 28 Apr 2007

Lt Kailash Chandra (NTS-17509H), 28 Apr 2007

Lt Gurumendra Giri (NTS-17510X), 28 Apr 2007

Lt Tomar Shiv Prakash Singh Rajendra Singh (NTS-17511A), 28 Apr 2007

Lt Jolly C Joseph (NTS-17512H), 28 Apr 2007

Lt Bijith Kumar P S (NTS-17513L), 28 Apr 2007

Lt Neelakantan P S (NTS-17514N), 28 Apr 2007

Lt Parwinder Singh (NTS-17515W), 28 Apr 2007

Lt Suresh P S (NTS-17516Y), 28 Apr 2007

Lt Chandra Prakash (NTS-17517F), 28 Apr 2007

Lt Prabhakaran K (NTS-17518K), 28 Apr 2007

Lt Hari Sai Srinivas (NTS-17521K), 28 Apr 2007

Lt Sanjay Kumar Shukla (NTS-17522M), 28 Apr 2007

Lt Abhay Singh (NTS-17523P), 28 Apr 2007

Lt Suraj Basnet (NTS-17524X), 28 Apr 2007

SHORT SERVICE COMMISSION
ARMY MEDICAL CORPS

Flt Lt to Sqn Ldr

Flt Lt Vemnuri Bharat Kumar (MS-13764X/AF-25559F), 18 Jan 2003

Flt Lt Manjith Singh Partola (MS-14648F/AF-26926H), 19 Feb 2007

Flt Lt Sonal Sharma (MS-14661L/AF-26931B), 03 Mar 2007

G. RAVINDRANATH
Brig.
Dy. DGAFMS (Pers)

No. 477, dated 30th Aug 2007—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION

To be Maj

Capt MS Rathore (TA-42081), Infantry, 16 Dec 2004

Capt Mandeep Sandhu (TA-42194), Infantry, 16 Dec 2004

Capt Nandu Kumar BN (TA-42208), Infantry, 16 Dec 2004

Capt RS Ray (TA-42213), Infantry, 16 Dec 2004

Capt PS Vaid (TA-42260), Infantry, 16 Dec 2004

Capt DM Dafedar (TA-42263), Infantry, 16 Dec 2004

Capt NR Deshpande (TA-42269), Infantry, 16 Dec 2004

Capt Ravinder Kumar (TA-42278), Infantry, 16 Dec 2004

Capt SD Sharma (TA-42283), Infantry, 16 Dec 2004

Capt CP Marak (TA-42301), Infantry, 16 Dec 2004

Capt A.P. Shankaran (TA-42322), Infantry, 16 Dec 2004

Capt Santosh Katoch (TA-42325), Infantry, 02 Jan 2005

Capt Vedvrat Vaidya (TA-42327), Infantry, 27 Jun 2005

Capt PT Jayaraj (TA-42336), Infantry, 15 Mar 2005

Capt SP Singh (TA-42341), Infantry, 03 Apr 2005

Capt CK Nigam (TA-42346), Infantry, 08 Jul 2005

Capt Devender Singh (TA-42349), Infantry, 16 Dec 2006

Capt MK Sharma (TA-42354), Infantry, 03 Dec 2005

Capt Sushil Guhani (TA-42376), Infantry, 16 Dec 2006

Capt Manu Kararia (TA-42387), Infantry, 02 Nov 2006
 Capt Varun Chaturvedi (TA-42438), Infantry, 16 Dec 2004

N KALIAPPAN
 Under Secy.

NATIONAL CADET CORPS

No. 478, dated 3rd September 2007—The undermentioned Vice Chancellors are granted the honorary rank of Colonel in the National Cadet Corps and are appointed as Colonel Commandant of their respective University as shown against their name for the period of their appointment as Vice Chancellor of the said University.

Name of the Vice Chancellor	Name of the Directorate	Name of the University	Date of appointment as Vice Chancellor
Dr. Kamlesh P Joshipura, Vice Chancellor	Gujarat	Saurashtra University, Rajkot	04 Aug 05
Dr. R.B. Deshmukh, Vice Chancellor	Maharashtra	Mahatma Phule Krishi Vidyapeeth Rahuri, Ahmednagar, Maharashtra	10 Feb 05
Dr. Nagnath Lalujirao Kottapalle, Vice Chancellor	Maharashtra	Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad	04 Jun 05
Prof. Surendra Pratap Singh, FNA Vice Chancellor	UA	HNB Garhwal University, Srinagar Garhwal, Uttaranchal	10 May 05
Dr. BG Mulimani, Vice Chancellor	Kar & Goa	Gulbarga University, Gulbarga	03 Jul 06
Prof. Abdul Wahid, Vice Chancellor	J & K	The University of Kashmir, Hazratbal, Srinagar	18 Dec 04

UK DHAR
 Brig.
 Dy. Dir. Gen. (MS)

AIR HEADQUARTERS

No. 479, dated 28th August 2007—The President is pleased to promote Sh. Nahar Singh, Senior Trans (E/H) in AFHQ/IS Organisation Service as Asstt. Director (OL) (Group 'B' Gazetted) on adhoc basis, in the pay scale of Rs. 7500—12000 with effect from 02 Jul 2007 until further orders.

Promotion of the above officer as Asstt Director (OL) is subject to the following conditions :—

- This promotion is made purely on temporary basis and can be terminated without notice.
- He will not have any claim for promotion to the above post on regular basis nor their service rendered as Asst Dir (OL) reckon for seniority.

SHANKAR SINGH
 Dy. CAO

ARMY BRANCH

No. 480, dated 3rd September 2007—The President is pleased to permit the undermentioned officers relinquish their short service commission in the Army Medical Corps wef 04 Dec 2006 and to grant them permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 10/2001 as amended.

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

ARMY MEDICAL CORPS (NON TECH)

To be Lt

Lt Arun Kumar Gupta (NTS-17486M now NTR-16759X), AMC (NT), 19 May 2003

Lt Sanjeev Kumar (NTS-17485K now NTR-16758P), AMC (NT), 19 May 2003

Lt Madhu K (NTS-17484F now NTR-16757M), AMC (NT), 19 May 2003

Lt Gokaran Singh (NTS-17483Y now NTR-16756K), AMC (NT), 19 May 2003

Lt Lakpa Yelmu (NTS-17473P now NTR-16754Y), AMC (NT), 24 Apr 2002

Lt Raju, P (NTS-17472M now NTR-16753W), AMC (NT), 24 Apr 2002

Lt BC Om Prakash (NTS-17469M now NTR-16751L), AMC (NT), 24 Apr 2002

Lt Yogesh HV (NTS-17462H now NTR-16750H), AMC (NT), 04 Apr 2001

(MoD Notification published in the Gazette of India dated 05.10.2002 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

G. RAVINDRANATH
 Brig.
 Dy. DGAFMS (Pers)

ARMY BRANCH

No. 481, dated 30th August 2007—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire from the Army Service wef dates noted against them, earlier than their normal age of retirement at their own request for their personal reasons and transfer them to Regular Reserve of Officers (Class X), under SAI 10/S/63 as amended :—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

Maj Harminder Singh Parmar (IC-37337), EME, 06 Jan 2000 (AN)

Lt Col (TS) Sharad Kumar (IC-40676), EME, 02 Jan 2002 (FN)

Maj Jasbir Singh (IC-41754), EME, 11 Jun 2003 (AN)

Lt Col SSB Gurkha (IC-43185), EME, 13 Feb 2005 (AN)

Maj Kanwal Kishore Girdhar (IC-41328), Sigs, 20 Jun 2004 (AN)

Lt Col (TS) Mukesh Kumar Chaturvedi (IC-45089), Sigs, 30 Nov 2004 (AN)

Maj Pendyala Srinivas (IC-49447), Sigs, 10 Feb 2005 (AN)

Lt Col (TS) Praveen Kumar Pandey (IC-42132), Sigs, 04 Nov 2004 (FN)

Lt Col (TS) Dutta Sanjeev (IC-41682), Sigs, 12 Jun 2004 (AN)

Lt Col (TS) Prabir Kumar Sen (IC-37983), Sigs, 25 Oct 2004 (AN)

Lt Col (Sel) Ajay Upendra Joshi (IC-38365), Sigs, 05 Mar 2005 (AN)

Maj Jitendra Singh Kaundal (IC-40624), Sigs, 14 Dec 2004 (AN)

Lt Col Mahendra Singh Yadav (IC-45140), AC, 12 Jan 2005 (AN)

Lt Col Ravindran K (IC-39571), AC, 20 Jan 2006 (AN)

Lt Col Mahabir Singh Hooda (IC-40037), Inf, 23 Jan 2006 (FN)

Lt Col Sukumar Sudhakar (IC-42277), Mech Inf, 31 Jan 2006 (AN)

Maj Narinjan Singh (IC-46173), Mech Inf, 30 Sep 2003 (AN)

Lt Col Shukla Rohit (IC-39442), AC, 01 Oct 2005 (AN)

Lt Col (Sel) Toms Ouseph (IC-37160), Engrs, 15 Sep 2004 (AN)

Maj Man Mohan Singh Thind (IC-39866), Engrs, 20 Jun 2004 (AN)

Lt Col (TS) Raj Kumar Salaria (IC-30960), AEC, 13 Dec 2003 (AN)

Lt Col (TS) Balram Singh Gulia (IC-40077), AOC, 31 Oct 2004 (AN)

S. K. CHAKRABORTY
Joint Director
MS/PR

ARMY BRANCH
CORRIGENDUM

No. 482, dated 29th August 2007.—In the Ministry of Defence Notification No 98 dated 02 Feb 2007 published in the Gazette of India serial No 8 dated 02 Feb 2007 under heading "Regular Army" Sub heading "Infantry" The Mechanised Infantry Regiment below :—

To be Naib Subedar

For : Hav Raghbir Singh (No. 14906823H now IC-420563P), 11 Sep 2006*

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Oct 2006 without effect on pay and allowances).

Read : Hav Raghbir Singh (No. 14906823H now IC-420563P), 11 Sep 2006*

(Granted seniority in the rank of Naib Subedar with effect from 01 Oct 2005 without effect on pay and allowances).

JOSE THOMAS
Under Secy.

CORRIGENDUM

No. 483, dated 3rd September 2007—

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published in the Gazette of India dated 19 August 2006 under the heading "Permanent Commission" in the Regular Army is hereby amended as under :—

For : U/533 Savya Sanchi (IC-67311A), Engrs

Read : U/536 Savya Sanchi (IC-67311A), Engrs

For : T/6209 Sahil Shaik (IC-67314N), Engrs

Read : T/6209 Sahil Shaikh (IC-67314N), Engrs

For : U/546 Suryawanshi Anirudha Dilipshing (IC-67322M), Engrs

Read : U/546 Suryawanshi Anirudha Dilipsinh (IC-67322M), Engrs

For : U/542 Wasim Siddiqi (IC-67331N), Engrs

Read : U/542 Wasim Siddiqui (IC-67331N), Engrs

For : T/6214 Ashish K Parmwar (IC-67315W), AEC

Read : T/6214 Ashish K Parmar (IC-67315W), AEC

CHANDER SHEIKHAR
Lt. Col.
AMS 8B